



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15—मई 21, 2010 (वैशाख 25, 1932)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15—MAY 21, 2010 (VAISAKHA 25, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2010

सेना शाखा

सं. 236, दिनांक 22 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की
सहर्ष नियुक्ति करती हैं:--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले के पद पर दिनांक 13 जून 2009 से

निम्नलिखित 124 नियमित पाठ्यक्रम (124 डाइरेक्ट एंट्री, 114 एनडीए, 91 एसीसी) के कैडिटों को सशस्त्र सेना से लेफ्टिनेन्ट के पद पर दिनांक 13 जून 2009 से स्थाई रूप से सेना निदेश ए/एस/74 (डाइरेक्ट एंट्री), सेना निदेश 53/78 को वि से नि/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एनडीए), सेना निदेश 55/74(एसीसी) के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है:--

आईसी सं., नाम और आर्म/सर्विस

(आईसी-71225एम) अभिषेक राणा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71226पी) ललित मोहन जोशी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71227एक्स) कार्तिक मनराल, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-71228ए) अंकुश गुप्ता, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71229एच) अभिषेक कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71230एक्स) मोहम्मद इलियास खान, इंजीनियर्स

(आईसी-71231ए) ऋषिक अग्रवाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71232एच) पंकज शर्मा, एवियेशन

(आईसी-71233एल) हिरेकर योगेश नारायण, एसी

(आईसी-71235डब्ल्यू) शारिफसिंह भोसले, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71236वाई) नयन घिल्लियाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71237एफ) बोरोले विशाल चन्द्राशेखर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71238के) विनीत कुमार मलिक, एएडी

(आईसी-71239एम) कादिर वेंकटचलम एन, आर्टी

(आईसी-71240एफ) विशाल दहिया, ईएमई

(आईसी-71241के) कमलेश काण्डपाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71242एम) धीरज मुरारी, सिग्नल्स

(आईसी-71243पी) करन कोछड़, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71244एक्स) मल्होत्रा रितेश कुमार जगदीशचन्द्र, एसी
 (आईसी-71245ए) जावेद खान एस, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71246एच) निशान सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71247एल) रजनीश मल्ल, एओसी
 (आईसी-71248एन) मेढेकर विद्यानंद अविनाश, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71249डब्ल्यू) तेज पाल सिंह, आर्टी
 (आईसी-71250एल) एन विगेन्द्र, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71252डब्ल्यू) पाटील सुवित सुरेश, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71253वाई) रक्तिम दास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71254एफ) कमलेन्द्र लौर, आर्टी
 (आईसी-71255के) लेनिन पाल, एएडी
 (आईसी-71256एम) युष्माम रोमेन सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71257पी) विभु प्रसन्न त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71258एक्स) पंकेश गुप्ता, आर्टी
 (आईसी-71259ए) राजीव जांघु, एएडी
 (आईसी-71260पी) देशपांडे शांतनू प्रवीन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71261एक्स) चौहान अभिजीत सिंह सुभाषसिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71262ए) आशीष दास, आर्टी
 (आईसी-71263एच) सुनील तिवारी, एओसी
 (आईसी-71264एल) अभिनव राणा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71265एन) लिविन वी कुटुंगल, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71266डब्ल्यू) कुलबीर सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-71267वाई) ऐन्ड्र्यू स्टीव पाकियानाथन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71268एफ) सिद्धार्थ शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71269के) जयंत डेका, एएससी
 (आईसी-71270वाई) साहिल गौतम, एसी
 (आईसी-71271एफ) दीपक सिंह भदौरिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71272के) जेरि जॉर्ज जॉन, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71273एम) नरेन्द्र यादव, आर्टी
 (आईसी-71274पी) अजिमुर् रहमान दाउदी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71275एक्स) कृष्णावतार मीणा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71276ए) अभिमन्यु सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71277एच) जय नारायण सिंह, एएससी
 (आईसी-71278एल) चिराग भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71279एन) अशोक सरोहा, आर्टी

(आईसी-71280एच) राज किरन भदौरिया, एओसी
 (आईसी-71281एल) उमराणीकर अजिंकय विकास, एसी
 (आईसी-71282एन) अखिल कश्यप, आर्टी
 (आईसी-71283डब्ल्यू) रोशनीकान्त इरुंगबम, एवियेशन
 (आईसी-71284वाई) मनदीप सिंह नेगी, एएससी
 (आईसी-71285एफ) जिलु जेक्कब, एएडी
 (आईसी-71286के) आशुतोष राठौर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71287एम) मुकेश कुमार गढ़वाल, एओसी
 (आईसी-71288पी) अजीत पाल सिंह यादव, एसी
 (आईसी-71289एक्स) राकेश कुमार शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-71290एम) सुमन कुमार, आर्टी
 (आईसी-71291पी) अनवर रज़ा, आर्टी
 (आईसी-71292एक्स) पदम सिंह चौहान, एएससी
 (आईसी-71293ए) रंजन कुमार कुंअर, आर्टी
 (आईसी-71294एच) हितेश आप्पासाहेब सोनावणे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71295एल) योगेश कुमार गुप्ता, आर्टी
 (आईसी-71296एन) दाहोत्रे सम्राट अशोक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71297डब्ल्यू) अंकुर हाजारिका, एएससी
 (आईसी-71298वाई) उपेन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-71299एफ) सतेन्द्र सिंह यादव, एएडी
 (आईसी-71300एल) रितिन यादव, आर्टी
 (आईसी-71301एन) प्रियंक मेहरा, आर्टी
 (आईसी-71302डब्ल्यू) जवाहर सिंह, एसी
 (आईसी-71303वाई) रोहित श्रीवास्तव, आर्टी
 (आईसी-71304एफ) मनोज कुमार, आर्टी
 (आईसी-71305के) ज्ञानेन्द्र भारद्वाज, आर्टी
 (आईसी-71306एम) डीसा रॉबिन अलबर्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71307पी) संजय गाहल्यान, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71308एक्स) आसुतोष नायक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71309ए) गौतम ईस्सर, आर्टी
 (आईसी-71310पी) रवि प्रकाश सिंह, एएससी
 (आईसी-71311एक्स) अंकुर मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-71312ए) भवानी शंकर पाण्डेय, एओसी
 (आईसी-71313एच) एच लामचिनयांग, इन्ट

(आईसी-71314एल) कुनाल गौरे, आर्टी
 (आईसी-71315एन) गजेन्द्र सिंह सिद्धू, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71316डब्ल्यू) बिनीवाले मंदार शशिकांत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71317वाई) शंकर दीप सिंह, एएडी
 (आईसी-71318एफ) अक्षय धिम्मैया, एसी
 (आईसी-71319के) नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71320वाई) गगनदीप धालिवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71321एफ) करीणी येशवन्त श्रीकान्त, एओसी
 (आईसी-71322के) संदीप पेंवार, एएडी
 (आईसी-71323एम) रोशन कुमार जैन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71324पी) निकुंज धामा, आर्टी
 (आईसी-71325एक्स) नीतेश कुमार सिंह, आर्टी
 (आईसी-71326ए) सुदीप गंगाधरन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71327एच) अभय सम्बयाल, एएससी
 (आईसी-71328एल) ऐ तमिलारसन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71329एन) जोशी जय अविनाश, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71330एच) नागराज बिसवराज मेध्याल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71331 एल) अंकुश कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71332एन) अरविंद बज्जाला, एसी
 (आईसी-71333डब्ल्यू) मयंक सिंह जादौन, आर्टी
 (आईसी-71334वाई) रोहित तिवारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71335एफ) इन्द्रजीत सिंह, एएससी
 (आईसी-71336के) विश्वरूप माहापात्र, इंजीनियर्स
 (आईसी-71337एम) रामविनोद सिंह, आर्टी
 (आईसी-71338पी) नितिन राणा, आर्टी
 (आईसी-71339एक्स) रजनीश रङ्गाल, एओसी
 (आईसी-71340एम) रवि कान्त द्विवेदी, एएडी
 (आईसी-71341पी) अभिषेक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71342एक्स) प्रवीन कुमार एन एस, आर्टी
 (आईसी-71343ए) विनीत एस नायर, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71344एच) अमर बहादुर कार्की, एओसी
 (आईसी-71345एल) कोइजाम मेक्स, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71346एन) अनमोल अहलावत, सिग्नल्स
 (आईसी-71347डब्ल्यू) हिमांशु मिश्रा, आर्टी

(आईसी-71348वाई) उमा आशीष, एओसी
 (आईसी-71349एफ) विकास कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71350डब्ल्यू) जे करन सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-71351वाई) कंवर जसप्रीत सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71352एफ) गुरप्रीत सिंह ढिल्लो, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71353के) प्लाबन मजुमदार, आर्टी
 (आईसी-71354एम) सुमित शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71355पी) नरेन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-71356एक्स) विकास पात्रो, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71357ए) प्रकाश कुमार पाठक, एएससी
 (आईसी-71358एच) सौरव शर्मा, एसी
 (आईसी-71359एल) अभिमन्यु कुमार शाह, आर्टी
 (आईसी-71360ए) पनिकर अभिलाष प्रभाकर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71361एच) वारी संतोषकुमार मनीराम, आर्टी
 (आईसी-71362एल) अमित यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71363एन) नरेन्द्र कुमार, एओसी
 (आईसी-71364डब्ल्यू) यतेन्द्र कुमार, एएससी
 (आईसी-71365वाई) सेष राहुल विश्वास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71366एफ) संतोष कुमार, इन्ट
 (आईसी-71367के) जितेन्द्र सिंह, एएडी
 (आईसी-71368एम) राहुल सच्चन, एसी
 (आईसी-71369पी) नितेश भटनागर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71370के) बुडुपु बालाजी राव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71371एम) मनोज सकलानी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71372पी) अमित प्राशर, आर्टी
 (आईसी-71373एक्स) धर्मेन्द्र कुमार पटेल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71374ए) किशती रोहन श्रीकान्त, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71375एच) रजत चंद्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71376एल) रोहित यादव, एएससी
 (आईसी-71377एन) आशुतोष चौहान, एएससी
 (आईसी-71378डब्ल्यू) अरविन्द कुमार, एओसी
 (आईसी-71379वाई) भरत के खेमानी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71380एन) विजेन्द्र कुमार खोला, आर्टी
 (आईसी-71381डब्ल्यू) उदयन ठाकुर, एएससी

(आईसी-71382वाई) वरुण पराशर, आर्टी	(आईसी-71416एफ) गितेश डगवाल, आर्टी
(आईसी-71383एफ) हर्ष वर्धन सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71417के) विपुल कुमार शुक्ला, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71384के) अक्षय अश्विनी, आर्टी	(आईसी-71418एम) अवधेश त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71385एम) अभिषेक कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71419पी) वैभव श्रीवासत्वा, इंजीनियर्स
(आईसी-71386पी) विक्रमादित्य सिंह, एवियेशन	(आईसी-71420के) विवेक मल्ल, इन्ट
(आईसी-71387एक्स) अजय पाल सिंह कण्डारी, आर्टी	(आईसी-71421एम) अमिताभ कुमार, आर्टी
(आईसी-71388ए) पंकज रावत, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71422पी) विगनेश्वरन सी, एसी
(आईसी-71389एच) अविन के पौल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71423एक्स) संनिध सरन भटनागर, आर्टी
(आईसी-71390एक्स) शेखर कुमार, ईएमई	(आईसी-71424ए) अश्विनी कुमार चौधरी, एओसी
(आईसी-71391ए) योगेश चौहान, एएससी	(आईसी-71425एच) असीम अलघ, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-71392एच) के अमृता राज, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-71426एल) जसवन्त सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71393एल) राकेश चव्हाण, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71427एन) अभिमन्यु सिंह बीका, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71394एन) सुशील चिकारा, एओसी	(आईसी-71428डब्ल्यू) पुष्पेन्द्र सिंह, आर्टी
(आईसी-71395डब्ल्यू) अमर कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71429वाई) झा संजीत कुमार शत्रुघ्न, एएससी
(आईसी-71396वाई) आदित्य सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71430एन) लक्की दास, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71397एफ) अक्षय चौबे, एएससी	(आईसी-71431डब्ल्यू) अजय कुमार तोमर, एसी
(आईसी-71398के) दीपक शर्मा, आर्टी	(आईसी-71432वाई) सौरभ सूरी, आर्टी
(आईसी-71399एम) मो. ओवेस खान, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71433एफ) पुष्पेन्द्र चौधरी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71400डब्ल्यू) संदीप कुमार, एसी	(आईसी-71434के) कंवर अरुण सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71401वाई) ई एडविन लिंकन, आर्टी	(आईसी-71435एम) पुष्पेन्द्र सिंह रावत, आर्टी
(आईसी-71402एफ) राजवीर सिंह, आर्टी	(आईसी-71436पी) सोमवंशी अविनाश यशवंत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71403के) जय कुमार मनीष, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-71437एक्स) हेमंत ठाकुर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71404एम) सुशांत द्विवेदी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71438ए) सुनील कुमार एम, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71405पी) अनुज शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71439एच) शुभम मदान, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71406एक्स) चेतन त्रिपाठी, एओसी	(आईसी-71440एक्स) खडसे नंदकिशोर दिपक, आर्टी
(आईसी-71407ए) अश्वनी ढाका, एएडी	(आईसी-71441ए) वैकटेशवरन के, एसी
(आईसी-71408एच) कृष्ण कान्त कुणाल, एएडी	(आईसी-71442एच) अनुराग, आर्टी
(आईसी-71409एल) गुलशन खोलिया, आर्टी	(आईसी-71443एल) अन्टप्पन पी अब्राहम, आर्टी
(आईसी-71410ए) सुनील कुमार पंवार, सिग्नल्स	(आईसी-71444एन) केविन कुमार टी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-71411एच) सुरेन्द्र कुमार यादव, इन्फैन्ट्री	(आईसी-71445डब्ल्यू) सौरभ शुक्ला, एएडी
(आईसी-71412एल) तुषार केदा भदाणे, एवियेशन	(आईसी-71446वाई) कर्ण बैम्बी, इन्ट
(आईसी-71413एन) सुनिल कुमार गुप्ता, आर्टी	(आईसी-71447एफ) रजनिकांत गोदवाणी, आर्टी
(आईसी-71414डब्ल्यू) ध्रुवेन्द्र सिंह चौहान, इंजीनियर्स	(आईसी-71448के) हरीश सिंह रावल, आर्टी
(आईसी-71415वाई) अभय प्रताप सिंह, एओसी	(आईसी-71449एम) हलदणकर नरेन्द्र वामन, एओसी

(आईसी-71450एफ) पेपिलोन राजकुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71451के) सम्राट चटर्जी, एसी
 (आईसी-71452एम) राहुल कुमार, आर्टी
 (आईसी-71453पी) सावंत अर्जुन वामन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71454एक्स) ललित शेरिंग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71455ए) नरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71456एच) संजय सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71457एल) आलोक कुमार तिवारी, आर्टी
 (आईसी-71458एन) विपिन नाथ पी, एएडी
 (आईसी-71459डब्ल्यू) मोहित ग्रेवाल, एएससी
 (आईसी-71460एल) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71461एन) एस जामखोलुन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71462डब्ल्यू) अंकित तिवारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71463वाई) सुनील कुमार यादव, सिग्नल्स
 (आईसी-71464एफ) अमित सहरावत, एओसी
 (आईसी-71465के) रवीन्द्र सिंह, एएडी
 (आईसी-71466एम) सुमित शर्मा, आर्टी
 (आईसी-71467पी) अजय शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71468एक्स) चन्द्र कान्त जोशी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71469ए) विश्व प्रताप राव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71470पी) पवन कुमार सोलंकी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71471एक्स) दीपक कुमार मिश्रा, एओसी
 (आईसी-71472ए) दीपक कुमार भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71473एच) गोविंद कुमार नाथ, आर्टी
 (आईसी-71474एल) राकेश कुमार तिवारी, आर्टी
 (आईसी-71475एन) कौस्तुभ सिंह, एसी
 (आईसी-71476डब्ल्यू) साहिल मल्हन, एएससी
 (आईसी-71477वाई) दीपक कुमार पराशर, इन्ट
 (आईसी-71478एफ) सुमित कुमार शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-71479के) भूपेन्द्र गौतम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71480वाई) महेन्द्र बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71481एफ) भरत सिंह झाला, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71482के) कवीन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71483एम) बिकल्प कुमार, एएससी
 (आईसी-71484पी) पवन कुमार सिंह सिन्धु, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71485एक्स) प्रकाश सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71486ए) मनोज सिंह खड़ायत, आर्टी
 (आईसी-71487एच) विश्वजीत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71488एल) कमल कुमार क्षेत्री, एएससी
 (आईसी-71489एन) दाकरपु नागार्जुन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71490एच) अजय सिंह, एवियेशन
 (आईसी-71491एल) योगेश कुमार, एसी
 (आईसी-71492एन) अनिल कुमार कादयान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71493डब्ल्यू) नीरज कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71494वाई) राहुल पाण्डेय, एएडी
 (आईसी-71495एफ) प्रवीन कुमार ठाकुर, आर्टी
 (आईसी-71496के) अमिताबा राहा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71497एम) जितेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71498पी) नवीन चंद्रा, आर्टी
 (आईसी-71499एक्स) अक्षय कुमार, एएडी
 (आईसी-71500एफ) अजय धायल, एसी
 (आईसी-71501के) योगेश कुमार, आर्टी
 (आईसी-71502एम) रोहन बत्रा, एएससी
 (आईसी-71503पी) सुबिन वासुदेवन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71504एक्स) ललित मोहन जोशी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71505ए) महेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़, एओसी
 (आईसी-71506एच) संदीप, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71507एल) सुमित कुमार द्विवेदी, आर्टी
 (आईसी-71508एन) आदित्य विक्रम सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71509डब्ल्यू) निसार हुसैन डार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71510एल) रवि सिंह, आर्टी
 (आईसी-71511एन) चन्दन कोहली, एवियेशन
 (आईसी-71512डब्ल्यू) सापधरे हर्ष मधुकर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71513वाई) पंकज सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71514एफ) पवन मिश्रा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71515के) बांदेकर विकास रत्नाकर, आर्टी
 (आईसी-71516एम) संदीप यादव, एसी
 (आईसी-71517पी) सुरेश कुमार, आर्टी
 (आईसी-71518एक्स) निशीथ मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-71519ए) मयंक दवे, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71520पी) निखिल शरण, आर्टी
 (आईसी-71521एक्स) महेश बी बी, एएससी
 (आईसी-71522ए) दुष्यंत चौधरी, सिग्नल्स
 (आईसी-71523एच) गौरव शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71525एन) खुन्नाकपम भूपेन्द्र सिंह, एएडी
 (आईसी-71526डब्ल्यू) चव्हाण अभिजीत दिलीपराव, आर्टी
 (आईसी-71527वाई) दीपक वर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71528एफ) सालिम खान, एओसी
 (आईसी-71529के) विश्वकर्मा सुधांशु जगन्नाथ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71530वाई) मनोज कुमार शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71531एफ) विपिन सरकैक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71532के) पी हरिकृष्णन, आर्टी
 (आईसी-71533एम) रोहित बक्शी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71534पी) कुशाग्र जस्वाल, एसी
 (आईसी-71535एक्स) रोहित मनहास, एओसी
 (आईसी-71536ए) गूटी नार्गाजुन रेड्डी, आर्टी
 (आईसी-71537एच) आशुतोष पाण्डेय, एएडी
 (आईसी-71538एल) नेलसन युमनाम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71539एन) मनीष कुमार, ईएमई
 (आईसी-71540एच) अरूण एस आर, एएससी
 (आईसी-71541एल) अभिषेक मल्लिक, आर्टी
 (आईसी-71542एन) गौरांग दोभाल, आर्टी
 (आईसी-71543डब्ल्यू) अभिमन्यु, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71544वाई) अर्पित राठी, एसी
 (आईसी-71545एफ) सोमेश शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71546के) निशान्त भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71547एम) मनमोहन सिंह रंधावा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71548पी) आशुतोष कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71549एक्स) अंकित जाधव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71550एम) चन्द्र भानू सिंह, एएससी
 (आईसी-71551पी) आशीष त्रिपाठी, सिग्नल्स
 (आईसी-71552एक्स) विष्णु नायर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71553ए) अंथोनी पैट्रिक, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71554एच) अजय कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71555एल) अनिल कुमार, एएडी
 (आईसी-71556एन) भूपेन्द्र शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71557डब्ल्यू) युवराज थापा, एओसी
 (आईसी-71558वाई) विक्रान्त, इन्फैन्ट्री

राहुल शर्मा
 लेफ्टि कर्नल
 ए एम एस-8बी

सेना शाखा

सं. 237, दिनांक 22 अप्रैल 2010---राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष
 नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 87 (सत्तासी) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 107 तकनीकी
 स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 17 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना
 (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित
 टी जी सी) और यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं, को 13 जून 2009
 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा
 शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93,
 यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को
 लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 13 जून
 2007 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों
 के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93,
 यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को
 दो वर्ष पूर्व को दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :--

आईएमए संख्या, नाम, आईसी संख्या तथा आर्म्स/सर्विस
 टी/6588 घाटगे आदित्य श्रीकुमार (71626एफ), इन्फैन्ट्री
 यू/928 चौहान सदानंद उदयसिंह, (71627के), सिग्नल्स
 यू/937 विभु शर्मा (71628एम), इन्फैन्ट्री
 टी/6596 व्यास मितेश हसमुखभाई (71629पी), सिग्नल्स
 यू/943 अंकुश चौधरी (71630के), इंजीनियर्स
 यू/885 तेरो केयांग (71631एम), सिग्नल्स
 टी/6581 रविन्द्र सिंह शेखावत (71632पी), ईएमई
 टी/6582 कँवर गौरव सिंह (71633एक्स), सिग्नल्स
 यू/919 प्रशान्त सिंह (71634ए), इंजीनियर्स
 यू/892 कुणाल सिंह राजवार (71635एच), ईएमई
 यू/929 सिद्धार्थ अहलावत (71636एल), इंजीनियर्स
 यू/927 चक्रदेव चैतन्य शिरीष (71637एन), इंजीनियर्स

- यू/921 सौरभ बिश्नोई (71638डब्ल्यू), इंजीनियर्स
यू/887 अंशुल शर्मा (71639वाई), ईएमई
यू/875 एलेकजेडर जोर्ज (71640एन), इंजीनियर्स
टी/6574 विकास वरयानी (71641डब्ल्यू), ईएमई
यू/926 राहुल पाण्डेय (71642वाई), ईएमई
यू/863 राजेश सिंह (71643एफ), इन्फैन्ट्री
यू/870 गोविन्द सिंह बिष्ट (71644के), ईएमई
टी/6589 राहुल गोवा (71645एम), इंजीनियर्स
यू/878 प्रतीक श्रीवास्तव (71646पी), ईएमई
यू/824 मुतालिक देसाई रघुनंदन अनिल (71647एक्स), सिग्नल्स
यू/851 अंकुर मिश्रा (71648ए), सिग्नल्स
यू/856 सुरेन्द्रन जे (71649एच), ईएमई
यू/917 जॉनपॉल जे मलायिल (71650एक्स), ईएमई
यू/895 विशाल बिंद्रा (71651ए), सिग्नल्स
यू/889 हेमन्त सिरोही (71652एच), सिग्नल्स
यू/891 गुरसिमरनदीप सिंह (71653एल), ईएमई
यू/925 पसबोला आदित्य खुशीराम (71654एन), सिग्नल्स
यू/873 पीयूष पौल (71655डब्ल्यू), इंजीनियर्स
यू/912 सूरज कुमार मिश्रा (71656वाई), ईएमई
यू/916 संदीप कुमार गुप्ता (71657एफ), इंजीनियर्स
यू/862 सत्यजित महान्ति (71658के), इंजीनियर्स
टी/6585 पाटिल स्वप्निल दिलीप (71659एम), ईएमई
यू/855 अरुण कुमार उमर (71660एफ), इंजीनियर्स
यू/920 महिराज सिंह राठौड़ (71661के), ईएमई
यू/939 अनिरुद्ध राठौड़ (71662एम), सिग्नल्स
यू/935 वैद्य आदित्य केतनकुमार (71663पी), सिग्नल्स
यू/852 राकेश रंजन (71664एक्स), इंजीनियर्स
यू/872 विपिन वी कुमार (71665ए), इंजीनियर्स
यू/884 सेंटोर्लॉग (71666एच), सिग्नल्स
टी/6576 शिंदे अमर अशोक (71667एल), इंजीनियर्स
यू/881 अर्जुन जयदेव (71668एन), ईएमई
यू/849 गुरप्रीत सिंह (71669डब्ल्यू), ईएमई
यू/854 निखिल गौर (71670एल), ईएमई
यू/907 वेंकट कृष्णन (71671एन), इंजीनियर्स
यू/865 सौरभ कुमार (71672डब्ल्यू), ईएमई
यू/910 साहिल चौधरी (71673वाई), सिग्नल्स
यू/879 सुब्रत प्रधान (71674एफ), सिग्नल्स
यू/864 राज कुँवर (71675के), इंजीनियर्स
यू/858 हेमन्त वासवानी (71676एम), इंजीनियर्स
यू/886 दीपक राठौर (71677पी), इंजीनियर्स
यू/857 प्रभाकर कुमार सिंह (71678एक्स), सिग्नल्स
यू/911 अनुपम कुमार (71679ए), इंजीनियर्स
टी/6597 वार्ष्णेय प्रकाशचंद्र दिनेशकुमार (71680पी), इंजीनियर्स
यू/931 दीपक सिंह चौहान (71681एक्स), इंजीनियर्स
यू/904 चिन्मय शर्मा (71682ए), सिग्नल्स
यू/942 उदयवीर सिंह (71683एच), इंजीनियर्स
यू/861 विजय कुमार सिंह (71684एल), सिग्नल्स
टी/6580 सौरभ ममगईन (71685एन), एसी
यू/868 अनुराग श्रीकान्त उपाध्याय (71686डब्ल्यू), इंजीनियर्स
यू/900 अर्चित शर्मा (71687वाई), इंजीनियर्स
टी/6579 विक्रम सिंह (71688एफ), इंजीनियर्स
टी/6584 अभिषेक मिश्रा (71689के), सिग्नल्स
टी/6591 अमित कुमार दीक्षित (71690वाई), ईएमई
यू/903 नरेन्द्र श्रीराम कुलकर्णी (71691एफ), इंजीनियर्स
यू/871 अनिल मल्लिक (71692के), सिग्नल्स
टी/6575 बलजिन्दर सिंह (71693एम), सिग्नल्स
यू/882 बितान चाकी (71694पी), सिग्नल्स
यू/888 सौरभ तिवारी (71695एक्स), ईएमई
टी/6578 गौरव शर्मा (71696ए), इंजीनियर्स
यू/897 हरमनजीत सिंह संगा (71697एच), ईएमई
यू/860 श्रीदेव पिल्ले (71698एल), सिग्नल्स
यू/918 विवेक बी शर्मा (71699एन), ईएमई
यू/932 हेमन्त चौधरी (71700एक्स), ईएमई
यू/936 इन्द्रजीत बालोटिया (71701ए), ईएमई
टी/6593 सीमाला विजयकुमार सोमाशेखर (71702एच), ईएमई
यू/848 प्रदीप कुमार झाँ (71703एल), ईएमई
यू/923 कार्तिकेय पाण्डेय (71704एन), सिग्नल्स
यू/867 राजीव रंजन (71705डब्ल्यू), ईएमई

टी/6592 अंशुमान रॉयचौधरी (71706वाई), इंजीनियर्स

टी/6590 सौम्यब्रत साहा (71707एफ), सिग्नल्स

टी/6586 वतन कुमार (71708के), इंजीनियर्स

यू/750 गुरक्रिपाल सिंह खम्बा (71709एम), इंजीनियर्स

यू/934 अनुपमकुमार दुबे (71710एफ), ईएमई

यू/899 जेक्सन जोस कौडूर (71711के), इंजीनियर्स

टी/6577 गौरव शर्मा (71712एम), सिग्नल्स

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 85 (पचासी) जैण्टलमैन कैडेट जो कि, 107 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी) और 17 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथांशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथांशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यूईईएस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है:--

आईएमए सं., नाम, एसएस सं., आर्म/सर्विस और अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

107 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

टी/6574 विकास वरयानी (43497डब्ल्यू), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2008

टी/6575 बलजिन्दर सिंह (43498वाई), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6576 शिंदे अमर अशोक (43499एफ), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6577 गौरव शर्मा (43500एल), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6578 गौरव शर्मा (43501एन), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2008

टी/6579 विक्रम सिंह (43502डब्ल्यू), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6580 सौरभ ममगईन (43503वाई), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6581 रविन्द्र सिंह शेखावत (43504एफ), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6582 केंवर गौरव सिंह (43505के), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6584 अभिषेक मिश्रा (43507पी), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6585 पाटिल स्वप्निल दिलीप (43508एक्स), ईएमई, 16 जुलाई 2008

टी/6586 वतन कुमार (43509ए), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2008

टी/6588 घाटगे आदित्य श्रीकुमार (43511एक्स), ईएमई, 16 जुलाई 2008

टी/6589 राहुल गोवा (43512ए), ईएमई, 16 जुलाई 2008

टी/6590 सौम्यब्रत साहा (43513एच), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6591 अमित कुमार दीक्षित (43514एल), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6592 अंशुमान रॉयचौधरी (43515एन), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6593 सीमाला विजय कुमार सोमाशेखर (43516डब्ल्यू), ईएमई, 16 जुलाई 2008

टी/6596 व्यास मितेश हसमुखर्मा (43519के), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

टी/6597 वार्ष्णेय प्रकाशचन्द्र दिनेश कुमार (43520वाई), इंजीनियर्स, 18 जुलाई 2008

17 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम

यू/848 प्रदीप कुमार झाँ (43521एफ), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

यू/849 गुरप्रीत सिंह (43522के), ईएमई, 08 अगस्त 2007

यू/851 अंकुर मिश्रा (43524पी), सिग्नल्स, 24 जुलाई 2007

यू/852 राकेश रंजन (43525एक्स), सिग्नल्स, 01 जुलाई 2007

यू/854 निखिल गौर (43527एच), ईएमई, 07 अगस्त 2007

यू/855 अरूण कुमार उमर (43528एल), इंजीनियर्स, 09 जुलाई 2007

यू/856 सुरेन्द्रन जे (43529एन), सिग्नल्स, 02 जुलाई 2007

यू/857 प्रभाकर कुमार सिंह (43530एच), ईएमई, 01 जुलाई 2007

यू/858 हेमन्त वासवानी (43531एल), सिग्नल्स, 08 जुलाई 2007

यू/860 श्रीदेव पिल्लै (43533डब्ल्यू), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

यू/861 विजय कुमार सिंह (43534वाई), ईएमई, 16 जुलाई 2008

यू/862 सत्यजीत महान्ति (43535एफ), ईएमई, 16 जुलाई 2007

यू/863 राजेश सिंह (43536के), सिग्नल्स, 02 जुलाई 2007

यू/864 राज कुंवर (43537एम), ईएमई, 01 जुलाई 2007

यू/865 सौरभ कुमार (43538पी), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

यू/867 राजीव रंजन (43540एम), ईएमई, 31 जुलाई 2007

यू/868 अनुराग श्रीकान्त उपाध्याय (43541पी), ईएमई, 09 जून 2007

यू/870 गोविन्द सिंह बिष्ट (43543ए), ईएमई, 01 अगस्त 2007

यू/871 अनिल मल्लिक (43544एच), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

यू/872 विपिन वी कुमार (43545एल), ईएमई, 25 जून 2007

यू/873 पीयूष पॉल (43546एन), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

यू/875 एलेकजेडर जॉर्ज (43548वाई), ईएमई, 16 जुलाई 2008

यू/878 प्रतीक श्रीवास्तव (43551वाई), सिग्नल्स, 01 जुलाई 2007

यू/879 सुब्रत प्रधान (43552एफ), ईएमई, 19 नवम्बर 2007

यू/881 अर्जुन जयदेव (43554एम), ईएमई, 01 जुलाई 2007

यू/882 बितान चाकी (43555पी), सिग्नल्स, 30 मई 2007

यू/884 सेंटेलोंग (43557ए), सिग्नल्स, 25 जुलाई 2007

यू/885 तेरो केयांग (43558एच), सिग्नल्स, 25 जुलाई 2007

यू/886 दीपक राठौर (43559एल), ईएमई, 16 जुलाई 2008

यू/887 अंशुल शर्मा (43560ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/888 सौरभ तिवारी (43561एच), ईएमई, 04 जुलाई 2007
 यू/889 हेमन्त सिरोही (43562एल), सिग्नल्स, 10 जुलाई 2007
 यू/891 गुरसिमरनदीप सिंह (43564डब्ल्यू), ईएमई, 16 जुलाई 2008
 यू/892 कुणाल सिंह राजवार (43565वाई), ईएमई, 06 अगस्त 2007
 यू/895 विशाल बिंद्रा (43568एम), ईएमई, 16 जुलाई 2008
 यू/897 हरमनजीत सिंह संग्रा (43570के), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/899 जेक्सन जोस कौटूर (43572पी), ईएमई, 17 जुलाई 2007
 यू/900 अर्चित शर्मा (43573एक्स), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/903 नरेन्द्र श्रीराम कुलकर्णी (43576एल), ईएमई, 16 जुलाई 2008
 यू/904 चिन्मय शर्मा (43577एन), सिग्नल्स, 25 जुलाई 2007
 यू/907 वेंकट कृष्णन् (43580एन), ईएमई, 16 जुलाई 2008
 यू/910 साहिल चौधरी (43583एफ), ईएमई, 16 जुलाई 2008
 यू/911 अनुपम कुमार (43584के), ईएमई, 27 जून 2007
 यू/912 सूरज कुमार मिश्रा (43585एम), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/916 संदीप कुमार गुप्ता (43589एच), ईएमई, 16 जुलाई 2008
 यू/917 जॉनपॉल जे मलायिल (43590एक्स), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/918 विवेक बी शर्मा (43591ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/919 प्रशान्त सिंह (43592एच), ईएमई, 01 जुलाई 2007
 यू/920 महिराज सिंह राठौर (43593एल), ईएमई, 16 जुलाई 2008
 यू/921 सौरभ बिश्नोई (43594एन), ईएमई, 01 जून 2007
 यू/923 कार्तिकेय पाण्डेय (43596वाई), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/925 पसबोला आदित्य खुशीराम (43598के), ईएमई, 16 जुलाई 2008
 यू/926 राहुल पाण्डेय (43599एम), ईएमई, 16 अगस्त 2007
 यू/927 चक्रदेव चैतन्य शिरीष (43600डब्ल्यू), ईएमई, 01 जुलाई 2007
 यू/928 चौहान सदानंद उदयसिंह (43601वाई), सिग्नल्स, 09 अगस्त 2007
 यू/929 सिद्धार्थ अहलावत (43602एफ), ईएमई, 01 जुलाई 2007
 यू/931 दीपक सिंह चौहान (43604एम), सिग्नल्स, 01 अगस्त 2007
 यू/932 हेमन्त चौधरी (43605पी), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/934 अनुपम कुमार दुबे (43607ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007
 यू/935 वैद्य आदित्य केतनकुमार (43608एच), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/936 इन्द्रजीत बालोटिया (43609एल), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

यू/937 विभु शर्मा (43610ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/939 अनिरुद्ध राठौर (43612एल), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008
 यू/942 उदयवीर सिंह (43615वाई), इंजीनियर्स, 22 फरवरी 2008
 यू/943 अंकुश चौधरी (43616एफ), सिग्नल्स, 07 अगस्त 2007
 2. जैण्टलमैन कैंडिडेट्स को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।
 1. निम्नलिखित जैण्टलमैन कैंडिडेट्स जो कि, 16 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

आईएमए संख्या, नाम, एसएस संख्या, आर्म/सर्विस तथा अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

यू/750 गुरकपाल सिंह खाम्बा (43082एफ), ईएमई, 16 जुलाई 2007
 यू/824 मुतालिक देसाई रघुनन्दन अनिल (43156एल), सिग्नल्स, 10 जुलाई 2006

2. जैण्टलमैन कैंडिडेट्स को दिए गए आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

राहुल शर्मा
 लेफ्टिनेंट
 ए एम एस-8बी

 एकीकृत मुख्यालय : रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

सं. 238, दिनांक 22 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डी ई एस/अनु-I/03 दिनांक 21 जनवरी 2008, एम एफ/1506/डी ई एस (पी सी)/अनु-I/03 दिनांक 21 जनवरी 2008, एम एफ/1401/डी ई एस/अनु-II/03 दिनांक 21 अगस्त 2007 एवं एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 23 अगस्त 2007 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा), कार्यकारी शाखा (एन ए आई कैंडर), कार्यकारी शाखा (वायु यातायात सेवा), कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैंडर), शिक्षा शाखा, अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी शाखा), अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोतशिल्प शाखा), वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा) एवं वैद्युत शाखा (पनडुब्बी शाखा)--जुलाई/अगस्त 2005 में सीधी भर्ती योजना/विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म तथा कमीशन की तिथि

कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा)--जुलाई 2005

आलोक उन्नीयाल (05777-बी), अस्थायी, 11 जुलाई 2005

अभिषेक पाठक (05778-एफ), अस्थायी, 11 जुलाई 2005

ए विनोद (05779-एच), अस्थायी, 11 जुलाई 2005
 प्रकाश शेखर (05781-एन), अस्थायी, 11 जुलाई 2005
 एम प्रवीण कुमार (05782-आर), अस्थायी, 11 जुलाई 2005
 ए मुथुकुमार (05783-टी), अस्थायी, 11 जुलाई 2005
 किरण जॉय (05788-बी), अस्थायी, 11 जुलाई 2005
 अजीत कुमार आर परब (05789-एफ), अस्थायी, 11 जुलाई 2005
 किरण कुपीली (05791-के), अस्थायी, 11 जुलाई 2005

कार्यकारी शाखा (एन ए आई कैडर)--जुलाई 2005
 त्रिपटपाल सिंह (05792-एन), स्थायी, 11 जुलाई 2005
 विजेन्द्र एस नानिया (05793-आर), स्थायी, 11 जुलाई 2005
 कार्यकारी शाखा (वायु यातायात कैडर)--अगस्त 2005

छवि राठी (05707-डब्ल्यू), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 साधना गिरी (05708-वाई), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 उमेश ब्रह्मदी (05709-जैड), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 अजीत कोसले (05710-ए), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैडर)--अगस्त 2005
 अमित चौरसिया (05762-डब्ल्यू), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 शिल्पी सिंह (05764-जैड), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 मनदीप कौर (05770-एन), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 सुपनीत के ग्रेवाल (05771-आर), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 जी ध्यागराजन (05772-टी), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

शिक्षा शाखा--अगस्त 2005
 नमिता परेश दलाल (70535-एफ), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 सुहास श्रिवाविकार (70536-एच), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 विनय सारस्वत (70537-के), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 संदीप मुरारका (70538-एन), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 योगेन्द्र कुमार सिंह (70539-आर), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 भक्ति गोखले (70540-टी), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 अतुल सहगल (70541-डब्ल्यू), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 शिखा (70542-वाई), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 जे व्यंकटप्रसाद (70543-जैड), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 सुर्चि गौर (70544-ए), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 सुश्री शिवानी पटनायक (70545-बी), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 सुमनलता (70546-एफ), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 उषा रानी (70547-एच), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 प्रत्युष चौहान (70548के-), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

कुमकुम उन्नीयाल (70549-एन), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 चवन पंकज पाडुरंग (70550-आर), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 विश्वराज श्री (70551-टी), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 शालिनी नायर (70552-डब्ल्यू), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 प्रज्ञा आर जोपट (70553-वाई), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

सीधी भर्ती योजना

अभियांत्रिकी शाखा (सामान्य सेवा)--अगस्त 2005
 नरेश परशुराम नेरकर (42652-के), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 चंद्रवीर सिंह यादव (42653-एन), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 रंजीत रघुनाथ दसारे (42654-आर), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 जीतेन्द्र अरोरा (42655-टी), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 विक्रम सिंह (42656-डब्ल्यू), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 अनमोल जैन (42657-वाई), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 सतीश शंकर कृष्णन् (42658-जैड), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

अभियांत्रिकी शाखा (पनडुब्बी कैडर)--अगस्त 2005
 सुबोधोप भट्टाचार्य (42659-ए), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 अभियांत्रिकी शाखा (नौसेना पोतशिल्प कैडर)--अगस्त 2005
 हिमांशु शर्मा (42663-के), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 वरुण शर्मा (42664-एन), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 मनीष कुमार सिंह (42665-आर), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 अनिरुद्ध प्रताप एस चौहान (42666-टी), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 रणवीर रंजन (42667-डब्ल्यू), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 रवीन्द्रपाल सिंह (42683-एफ), अस्थायी, 12 सितम्बर 2005

वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)--अगस्त 2005
 विक्रान्त कुमार (52154-एफ), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 बी व्यंकटेश प्रभु (52155-एच), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 जयद्रथ यादव (52156-के), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 ऋषभ बत्रा (52157-एन), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 रंजीत रवीन्द्रन (52158-आर), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 विजय कृष्ण यू नायर (52159-टी), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 अनीश रंजन (52160-डब्ल्यू), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 दुष्मंता कुमार समल (52161-वाई), अस्थायी, 08 अगस्त 2005
 पी जयगणेश (52162-जैड), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैंडर)--अगस्त 2005

सुकुमार दास (52152-ए), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डी ई एस/अनु-I/03 दिनांक 30 जून 2006, एम एफ/1401/डी ई एस/अनु-II/03 दिनांक 30 जून 2006 एवं एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 30 जून 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा), कार्यकारी शाखा (एन ए आई सी कैंडर), कार्यकारी शाखा (संभारिकी शाखा), शिक्षा शाखा, अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा), वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैंडर) एवं नौसेना पोतशिल्प शाखा-जुलाई/अगस्त 2004 में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले, के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म, कमीशन की तिथि

कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा)-जुलाई 2004

संतोष कृष्णन (05669एच), अस्थायी, 12 जुलाई 2004

विनोद शशिधरन (05677ए), अस्थायी, 12 जुलाई 2004

मोहित कुमार तोमर (05680एच), अस्थायी, 12 जुलाई 2004

निशांत निलीकुंज (05682एन), अस्थायी, 12 जुलाई 2004

आर मधुसूदनन् (05683आर), अस्थायी, 18 जुलाई 2004

जोस मैथ्यु (05684टी), अस्थायी, 12 जुलाई 2004

विद्या शंकर नवीन (05685डब्ल्यू), अस्थायी, 17 जुलाई 2004

कार्यकारी शाखा (एन ए आई सी कैंडर)-जुलाई 2004

अब्दुल हमीद तनवीर (05662टी), अस्थायी, 12 जुलाई 2004

शशांक सिंह गौर (05664वाई), अस्थायी, 12 जुलाई 2004

कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैंडर)-अगस्त 2004

सुप्रिया दत्ता (05653वाई), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

स्मृति त्रिपाठी (05658एच), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

विजेता मलिक (05659के), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

शिक्षा शाखा-अगस्त 2004

रवि मिश्रा (70507टी), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

इन्द्रपाल सिंह (70511ए), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

कुलदीप डगर (70513एफ), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

दीपक पाल (70516एन), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

निशा सिंह (70518टी), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

शिल्पा अवस्थी (70521जैड), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

विजयेता (70525एच), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)-अगस्त 2004

महेन्द्र प्रताप सिंह डंगवाल (42549ए), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

डी सेन्थीलवाला (42560ए), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)-अगस्त 2004

जगजीत सिंह सेबी (52092आर), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

विकाश शंकर मिश्रा (52100एच), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैंडर)-अगस्त 2004

मनीष सिंह (52104टी), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

मरीप्पन थीरुवेनगदम (52105डब्ल्यू), अस्थायी, 09 अगस्त 2004

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डी ई एस/अनु-I/03 दिनांक 15 जून 2006, एम एफ/1401/डी ई एस/अनु-II/03 दिनांक 15 जून 2006 एवं एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 15 जून 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा), कार्यकारी शाखा (हाइड्रो कैंडर), शिक्षा शाखा, अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), एवं वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा), में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले, के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म, कमीशन की तिथि

कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा)-जनवरी 2004

प्रवीण कुमार पी (05489जैड), अस्थायी, 12 जनवरी 2004

एन रघुसम (05491बी), अस्थायी, 12 जनवरी 2004

अश्विनी कुमार यादव (05492एफ), अस्थायी, 12 जनवरी 2004

इन्द्रजीत सिकंदर (05494के), अस्थायी, 12 जनवरी 2004

एल हरीहरन (05495एन), अस्थायी, 12 जनवरी 2004

के भास्करन (05496आर), अस्थायी, 12 जनवरी 2004

नीरज सोनी (05497टी), अस्थायी, 15 जनवरी 2004

कार्यकारी शाखा (हाइड्रो कैंडर)-जनवरी 2004

के सेन्थील कुमार (05498डब्ल्यू), अस्थायी, 12 जनवरी 2004

शिक्षा शाखा-फरवरी 2004

प्रमोद मेनन (70502एफ), अस्थायी, 09 फरवरी 2004

अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)-फरवरी 2004

चन्द्रमौली द्विवेदी (42481वाई), अस्थायी, 09 फरवरी 2004

राहुल प्रताप सिंह (42487के), अस्थायी, 09 फरवरी 2004

डिन्कु बोराह (42490टी), अस्थायी, 09 फरवरी 2004

एम के सुधीप (42491डब्ल्यू), अस्थायी, 09 फरवरी 2004

समीर केदारनाथ जबर (42492वाई), अस्थायी, 09 फरवरी 2004

जीनोय जोसफ (42493जैड), अस्थायी, 09 फरवरी 2004

के पी आदित्य (42494ए), अस्थायी, 09 फरवरी 2004

पवनदीप सिंह (42496एफ), अस्थायी, 19 फरवरी 2004
 जोसफ थोमस तरुण (42497एच), अस्थायी, 19 फरवरी 2004
 वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)-फरवरी 2004
 आर राजीव (51991के), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 कुणाल गुप्ता (51993आर), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 विक्रम दत्ता (51995डब्ल्यू), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 प्रदीप पाठक (51996वाई), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 के विनायक (51999बी), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 चिराग एस वर्मा (52003एन), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 जी अरूण (52005टी), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 पी वी गोकुल प्रसाद (52006डब्ल्यू), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 सी कार्तिक (52007वाई), अस्थायी, 09 फरवरी 2004
 मानलेय लियोनेल (52008जेड), अस्थायी, 19 फरवरी 2004

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डी ई एस/अनु-1/03 दिनांक 26 मई 2006, एम एफ/1401/डी ई एस/अनु-II/03 दिनांक 25 मई 2006 एवं एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 29 मई 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा), शिक्षा शाखा, अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी कैडर) एवं वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा), में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले, के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म, कमीशन की तिथि

कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा)-जनवरी 2003

राजेन्द्र नाथु शस्त्राकार (05411वाई), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

पी प्रेमजीत (05413ए), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

प्रांजल सिन्हा (05414बी), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

दक्षिणमूर्ति वी (05415एफ), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

रंजन विश्वास (05416एच), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

शिक्षा शाखा-फरवरी 2003

अब्दुल रशीद करीम देसाई (70479बी), स्थायी, 10 फरवरी 2003

अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)-फरवरी 2003

श्रीनिवास राव गारिकी (42384ए), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

प्रभुदत्ता चंद (42391टी), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

वी सुरेशकुमार (42392डब्ल्यू), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

ऋषिकेश एस बुटोलिया (42393वाई), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

अनिल कुमार सिंह (42395ए), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

आलोक तिवारी (42399के), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

प्रदीप कुमार एस (42405जेड), अस्थायी, 13 फरवरी 2003

एन आनन्द (42410के), अस्थायी, 19 फरवरी 2003

अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी कैडर)-फरवरी 2003

अरविंदर सिंह बाजवा (42389एन), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

जगदीश (42394जेड), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)-फरवरी 2003

जे रंगराजन (51905आर), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

बीजू अब्राहम (51906टी), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

सिद्धार्थ वालावाला (51919वाई), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

आर कार्तिकेयन (51920जेड), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

संदीप येरेलू (51921ए), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

के मनोज (51923एफ), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

सुभाष नारायण चिकुपल्ली (51925के), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

संतोष कुमार चौबे (51929डब्ल्यू), अस्थायी, 13 फरवरी 2003

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डी ई एस/अनु-1/03 दिनांक 31 मई 2007, एम एफ/1401/डी ई एस/अनु-II/03 दिनांक 31 मई 2007 एवं एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 30 मई 2007 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा), कार्यकारी शाखा (हाइड्रो कैडर), शिक्षा शाखा, अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी शाखा), वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा) एवं वैद्युत शाखा (पनडुब्बी शाखा)-जनवरी/फरवरी 2005 में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले, के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म, कमीशन की तिथि

कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा)-जनवरी 2005

प्रकाश रिचर्ड (05686वाई), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

शक्ति सिंह चौहान (05687जेड), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

नवीन अभिषेक (05688ए), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

अभिषेक पटेल (05689बी), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

बोद्धजीत सिंह नओरम (05691एच), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

आशीष कुमार त्रिपाठी (05692के), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

कुन्दन (05693एन), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

के के जगदीप (05694आर), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

मोहन कुमार बुदन क्याला (05697वाई), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

किरण कुमार सिन्हा (05698जेड), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

एस मधु (05699ए), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

जर्नादन चेतन (05700बी), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

हिमन्त होथी (05701एफ), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

राजु शंकर (05703के), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

कार्यकारी शाखा (हाइड्रो कैडर)-जनवरी 2005

एम विष्णुबर्द्धन (05704एन), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

धीरज कुमार (05705आर), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

प्रदीप कुमार ब्रल (05706टी), अस्थायी, 10 जनवरी 2005

शिक्षा शाखा-जनवरी 2005

राकेश नयन (70526के), स्थायी, 10 जनवरी 2005

अजीत कृष्णन (70527एन), स्थायी, 10 जनवरी 2005

एन संतोष कुमार (70532जेड), स्थायी, 10 जनवरी 2005

अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)-फरवरी 2005

नीरज परमार (42577आर), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

रंजीत सिंह विदी (42580वाई), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

अभिजीत अशोक महापुरे (42581जेड), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

राहुल रामगुंडा पाटिल (42582ए), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

राठौड़ रोमेश पुरुषोत्तम (42585एच), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

संदीप मलिक (42586के), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

विजयंत त्यागी (42587एन), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

ए श्रीराम शंकर (42588आर), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी कैडर)-फरवरी 2005

प्रदीप सिंह नेहरा (42589टी), अस्थायी, 17 फरवरी 2005

वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)-फरवरी 2005

अश्विन एम राव (52063जेड), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

आदित्य सिंह (52064ए), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

कमलदीप सिंह तूर (52067एच), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

माधव दमेरा (52068के), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

अमित कुमार (52070आर), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

अभिनव कुमार (52072डब्ल्यू), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

महेश कुमार पनसेठ्ठी (52073वाई), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

धीरूमल बलावन राठीनवेलु (52075ए), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

के नवीन (52078एच), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

वरुण संतोष खनवाल्कर (52079के), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

विकास वर्मा वी (52080एन), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैडर)-फरवरी 2005

आर राजेश (52083डब्ल्यू), अस्थायी, 17 फरवरी 2005

राजेश राजगोपालन
कमांडरजे डी एम पी आर
(ओ आई एंड आर)

सेना शाखा

सं. 239, दिनांक 22 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति महोदया, निम्नलिखित स्थानापन्न अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति की अवधि उनके नामों के सामने दी गई तारीख से अथवा सेवा निवृत्ति तक या नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करती है :-

नाम	जन्म तिथि	अवधि	
		से	तक
1	2	3	4
श्री एस के जैन	11 दिसम्बर 1963	24 अगस्त 2008	11 दिसम्बर 2009
श्री पी जे रॉस	19 जून 1967	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्रीमती अनीता कुमारी	01 जून 1967	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री आलोक गर्ग	12 जून 1963	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री एम शामराज	25 सितम्बर 1949	24 अगस्त 2008	31 अगस्त 2009
श्री गुलशन राय	30 अक्टूबर 1968	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री ए के एल दास	26 जनवरी 1966	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री देशराज	05 अक्टूबर 1955	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री दीपक कुमार दास	01 अगस्त 1966	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री एस के मेलकानी	20 मई 1967	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री देवीदयाल	14 मई 1953	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री रमिंदर सिंह	29 मई 1969	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री रजनीमोहन गुप्ता (सेवानिवृत्त)	10 जनवरी 1949	24 अगस्त 2008	31 जनवरी 2009
श्री आशीष रे	07 जुलाई 1969	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री आर के तलवार	25 दिसम्बर 1951	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री के एन चतुर्वेदी	07 मार्च 1950	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री पंकज भारती	09 जुलाई 1971	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री विनय कुमार	25 अगस्त 1973	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री कुंवर प्रताप सिंह	09 सितम्बर 1971	24 अगस्त 2008	16 मार्च 2009
श्री ए के सरीन (सेवानिवृत्त)	15 अक्टूबर 1948	24 अगस्त 2008	31 अक्टूबर 2008
श्री एन के पटनी (दिवंगत)	10 जनवरी 1949	24 अगस्त 2008	25 अगस्त 2008
श्री राम निवास	14 मई 1951	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री सतीश कुमार	05 जुलाई 1950	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009
श्री संजीव कुमार वर्मा	10 दिसम्बर 1971	24 अगस्त 2008	14 मई 2009
श्री ओ पी चौधरी	26 दिसम्बर 1949	24 अगस्त 2008	31 दिसम्बर 2009

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है एवं प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर समाप्त की जा सकती है।

3. स से मु सि से नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत प्रदान की गई पदोन्नति के आधार पर नियमित पदोन्नति/नियुक्ति का कोई दावा स्वीकार

नहीं किया जाएगा। इस ग्रेड में वरिष्ठता की गणना उनकी नियमित नियुक्ति अर्थात् सहायक के रूप में की जाएगी।

राष्ट्रपति महोदया, श्री सिद्धार्थ यादव (जन्म तिथि : 23 अप्रैल 1980) को 02 मार्च 2009 से वेतन बैंड-2, 4,800/- रुपए ग्रेड के वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान में स से मु सिविल सेवा के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करने की सहर्ष मंजूरी प्रदान करती है।

राष्ट्रपति महोदया, निम्नलिखित सहायकों को (समूह 'ख' अराजपत्रित) एल डी सी ई परीक्षा-2005 के आधार पर उनके नामों के सामने दी गई तारीख से वेतन बैंड-2, 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करती है :--

नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि
श्री अशोक कुमार	01 जून 1978	17 मार्च 2009
श्री अमिताभ कुमार श्रीवास्तव	14 फरवरी 1977	22 जून 2009
श्री चित्रसेन यादव	14 जून 1976	17 मार्च 2009
श्रीमती कल्पना मिश्रा	19 मार्च 1978	17 मार्च 2009
श्री कुंवर प्रताप सिंह	09 सितम्बर 1971	17 मार्च 2009
श्री मनोज कुमार सिंह	10 जुलाई 1976	17 मार्च 2009
श्री रत्नेश भारती	05 मई 1974	08 अप्रैल 2009
श्री राजेश रंजन	10 नवम्बर 1969	17 मार्च 2009

ए के लारोइया
उप मु प्र अ (प्रशा.)

वायु शाखा

सं. 240, दिनांक 23 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को प्रदत्त औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी ऑफिसर से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर एस सिंवा ऐलामुरुगु (29670) और विकाश कुमार सिन्हा (29671)--21 जून 2008 से प्रभावी।

फ्लाईंग ऑफिसर संरूगबम डेनी सिंह (29411), राहुल शर्मा (29412)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

राष्ट्रपति महोदया, अधोलिखित यू/टी अफसरों को प्रदान किए गए अस्थायी अल्प सेवा कमीशन को समाप्त कर उन्हें अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करती हैं, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र सं. वा से मु/एस

24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी (एयर-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत उनके नाम के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर तरुणा यादव (29413), 16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

फ्लाईंग ऑफिसर राजिका शर्मा (29869) और साक्षी (29870)--20 दिसम्बर 2008 से प्रभावी।

फ्लाईंग ऑफिसर राजिका शर्मा (29869) और साक्षी (29870)--07 जनवरी 2008 से प्रभावी।

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स)

फ्लाईंग ऑफिसर मनीष आहुजा (29857), अरुण कुमार सिंह (29858), सपना जनार्दन (29859), रितु नायक (29860), चारु शर्मा (29861), नविदिता शर्मा (29862), शीतल तनवर (29863), सुमति चन्द्रा (29864), नेहा गुप्ता (29865), परमिन्दर कौर (29866), सुजाता (29867), भूमिका आनंद (29868)--02 जून 2009 से प्रभावी।

फ्ला. अफ. मनीष आहुजा (29857), अरुण कुमार सिंह (29858), सपना जनार्दन (29859), रितु नायक (29860), चारु शर्मा (29861), नविदिता शर्मा (29862), शीतल तनवर (29863), सुमति चंद्रा (29864), नेहा गुप्ता (29865), परमिन्दर कौर (29866), सुजाता (29867), भूमिका आनंद (29868)--07 जनवरी 2008 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर एस सिंवा ऐलामुरुगु (29670), 02 जुलाई 2007 से प्रभावी।

फ्लाईंग ऑफिसर विकाश कुमार सिन्हा (29671), 13 जुलाई 2007 से प्रभावी।

राष्ट्रपति महोदया, अधोलिखित अफसरों को स्थाई कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करती हैं, जो वा से आ 59/98 के उपबंधों के तहत उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा।

भारतीय वायु सेना

पूर्व फ्लाईट कैडेटों से फ्लाइट अफसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट अफसर विजय कुमार धनकर (29750), तिरुनागरी नरसिम्हा स्वामी (29751), अभिमन्यु सिंह (29752), आर अरुण कुमार (29753)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईट अफसर प्रवीण कंदाला (29754), बपुन चक्रवर्ती (29755), संदीप प्रेम सिंह (29756), तेजसिंह विजयराव भोंसले (29757), अनिल सिंह रावत (29758), राकेश कुमार (29759), मुकंद शर्मा (29760)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्ला अफसर सलिल सिंह (29761), सुप्रसन्न मिश्रा (29762)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्ला अफसर दीपू मेथ्यू (29763), एम राजकुमार (29764), गुरदीप सिंह चौहान (29765), राजा गोस्वामी (29766), किरण वेलप्पन पिल्लै (29767), राजीव सक्सेना (29768), भवानी सिंह (29769)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

राष्ट्रपति महोदया अधोलिखित अफसरों को अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करती हैं, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र सं. वासेमु/एस 24745/4/पीपी (ओ)/पीसी-1/184/डीएस/डी (एयर-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगी।

भारतीय वायु सेना

पूर्व-फ्ला कैडेटों से फ्ला. अफसर के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईट अफसर विकास कुमार (29772), दिनेश सिंह मलिक (29773), प्रणय कुमार सिंह (29774), भावेश कुमार दूबे (29775), अंकुश गुप्ता (29776), राकेश शर्मा (29777), सुरेश चन्द्र साहू (29778), विकास सिंह परिहार (29779), हरविन्दर सिंह चाहर (29780), सुनील कुमार (29781), प्रवीण सिंह (29782), सब्यसाची मिश्रा (29783)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्ला अफसर नरेश कुमार (29784), राजेश कुमार गुप्ता (29785), बिनायक बुध प्रकाश (29786), अरूण कुमार (29787), विजय कृष्ण शर्मा (29788), विजय कुमार जाधव (29789)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईट अफसर सुरज मथाई (29790)

--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

फ्ला. अफसर प्रियंका वर्मा (29797), अदिति माधव (29798), विनम्रता शर्मा (29799), प्रीति यादव (29800), प्रियंका यादव (29801), आकांक्षा सिंह (29802), प्रार्थना चाहल (29803), कनुप्रिया राणा (29804)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्ला अफसर सिमरन चौपड़ा (29805), प्रीति जून (29806), शिल्पी शर्मा (29807), प्रांजलि सिंह (29808), विभा तोमर (29809), अर्पिता स्टीले (29810)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईट अफसर पल्लवी चौहान (29811), सुजाता बिष्ट (29812), शिल्पा बोहरा (29813), देवयानी दाबाई (29814), दीक्षा सिंह (29815), सोनिया रेखी (29816)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्ला अफसर अनुराधा सिंह (29817), श्वेता पाण्डे (29818)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वासेमु/एस 24745/4/पीपी (ओ)/पीसी-1/184/डीएस/डी (एयर-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत अधोलिखित अफसरों को फ्ला. अफ. के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन एवं विंग प्रदान करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा। ये अफसर पीएसएससी एवं विंग प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 16 दिसम्बर 2007 से उड़ान वेतन के पात्र होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) के शाखा

पूर्व-फ्लाईट कैडेटों से फ्ला. अफसर के रैंक

फ्लाईट अफसर हरनीत ढिल्लन (29791), प्रियदर्शिनी चौहान (29792), दिव्या कटोच (29793), तन्मय हेमंत नाईक (29794), स्नेहा बालचन्द्रा कुलकर्णी (29795)--16 दिसम्बर 2007 से प्रभावी।

एन विजय कुमार
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3(डी)

सं. 241, दिनांक 23 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करती हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आईसी सं., नाम, आर्म और ले. कर्नल दिनांक से
(आईसी-46240) पारस बसनेट इन्फैन्ट्री, 22 अक्टूबर 2007
(आईसी-53648) विक्रम मेहनिरत्ता, ईएमई, 10 जून 2008
(एसएल-04275) चन्द्र पाल सिंह, एओसी, 03 जून 2008
आईसी सं., नाम और आर्म
(आईसी-53362) रितेश कुमार, एएससी, 03 नवम्बर 2008
(आईसी-55784) रजिन्दर सिंह, सिग्नल्स

आईसी सं., नाम, आर्म

(आईसी-55785) मनजोत सिंह लुधर, ईएमई

--05 नवम्बर 2009

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक एमएस-8सी

सेना शाखा

सं. 242, दिनांक 23 अप्रैल 2010 को राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मेजर से ले कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म तथा सब्सटेंटिव तिथि

(आईसी-38805एफ) सुधीर पाण्डे, आर्टी, 07 जून 2000

(आईसी-38996एफ) एन एस दत्ताराम, आर्टी, 07 जून 2000

टी के दास

उप निदेशक

एमएस 8ए

सं. 243, दिनांक 23 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी सं., नाम, आर्म तथा मेजर दिनांक से

(आईसी-63224) नंद किशोर प्रकाश, इन्फैन्ट्री, 14 जून 2009

(आईसी-64967) रितेश श्रीवास्तव, ईएमई, 06 नवम्बर 2005

(आईसी-64968) राकेश पाल, सिग्नल्स, 06 नवम्बर 2005

ले से कप्तान

आईसी सं., नाम तथा आर्म

(आईसी-71626) घाटगे आदित्य श्रीकुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71627) चौहान सदानंद उदयसिंह, सिग्नल्स

(आईसी-71628) विभु शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71629) व्यास मितेश हसमुखभाई, सिग्नल्स

(आईसी-71630) अंकुश चौधरी, इंजीनियर्स

(आईसी-71631) तेरो केयांग, सिग्नल्स

(आईसी-71632) रविन्द्र सिंह शेखावत, ईएमई

(आईसी-71633) कँवर गौरव सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-71634) प्रशान्त सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-71635) कुणाल सिंह राजवार, ईएमई

(आईसी-71636) सिद्धार्थ अहलावत, इंजीनियर्स

(आईसी-71637) चक्रदेव चैतन्य शिरीष, इंजीनियर्स

(आईसी-71638) सौरभ बिश्नोई, इंजीनियर्स

(आईसी-71639) अंशुल शर्मा, ईएमई

(आईसी-71640) एलेकजेंडर जॉर्ज, इंजीनियर्स

(आईसी-71641) विकास वरयानी, ईएमई

(आईसी-71642) राहुल पाण्डेय, ईएमई

(आईसी-71643) राजेश सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71644) गोविन्द सिंह बिष्ट, ईएमई

(आईसी-71645) राहुल गोवा, इंजीनियर्स

(आईसी-71646) प्रतीक श्रीवास्तव, ईएमई

(आईसी-71647) मुतालिक देसाई रघुनंदन अनिल, सिग्नल्स

(आईसी-71648) अंकुर मिश्रा, सिग्नल्स

(आईसी-71649) सुरेन्द्रन जे, ईएमई

(आईसी-71650) जॉनपॉल जे मलायिल, ईएमई

(आईसी-71651) विशाल बिंद्रा, सिग्नल्स

(आईसी-71652) हेमन्त सिरौही, सिग्नल्स

(आईसी-71653) गुरसिमरनदीप सिंह, ईएमई

(आईसी-71654) पसबोला आदित्य खुशीराम, सिग्नल्स

(आईसी-71655) पीयूष पॉल, इंजीनियर्स

(आईसी-71656) सूरज कुमार मिश्रा, ईएमई

(आईसी-71657) संदीप कुमार गुप्ता, इंजीनियर्स

(आईसी-71658) सत्यजीत मोहन्ती, इंजीनियर्स

(आईसी-71659) पाटिल स्वप्निल दिलीप, ईएमई

(आईसी-71660) अरूण कुमार उमर, इंजीनियर्स

(आईसी-71661) महिराज सिंह राठौर, ईएमई

(आईसी-71662) अनिरुद्ध राठौर, सिग्नल्स

(आईसी-71663) वैद्य आदित्य केतनकुमार, सिग्नल्स

(आईसी-71664) राकेश रंजन, इंजीनियर्स

(आईसी-71665) विपिन बी कुमार, इंजीनियर्स

(आईसी-71666) सैटीलॉग, सिग्नल्स
 (आईसी-71667) शिंदे अमर अशोक, इंजीनियर्स
 (आईसी-71668) अर्जुन जयदेव, ईएमई
 (आईसी-71669) गुरप्रीत सिंह, ईएमई
 (आईसी-71670) निखिल गौर, ईएमई
 (आईसी-71671) वेंकट कृष्णन, इंजीनियर्स
 (आईसी-71672) सौरभ कुमार, ईएमई
 (आईसी-71673) साहिल चौधरी, सिग्नल्स
 (आईसी-71674) सुब्रत प्रधान, सिग्नल्स
 (आईसी-71675) राज कुँवर, इंजीनियर्स
 (आईसी-71676) हेमन्त वासवानी, इंजीनियर्स
 (आईसी-71677) दीपक राठौर, इंजीनियर्स
 (आईसी-71678) प्रभाकर कुमार सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-71679) अनुपम कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-71680) वार्ष्ण्य प्रकाशचन्द्र दिनेशकुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-71681) दीपक सिंह चौहान, इंजीनियर्स
 (आईसी-71682) चिन्मय शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-71683) उदयवीर सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71684) विजय कुमार सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-71685) सौरभ ममगईन, एसी
 (आईसी-71686) अनुराग श्रीकान्त उपाध्याय, इंजीनियर्स
 (आईसी-71687) अर्चित शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71688) विक्रम सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71689) अभिषेक मिश्रा, सिग्नल्स
 (आईसी-71690) अमित कुमार दीक्षित, ईएमई
 (आईसी-71691) नरेन्द्र श्रीराम कुलकर्णी, इंजीनियर्स
 (आईसी-71692) अनिल मलिक, सिग्नल्स
 (आईसी-71693) बलजिन्दर सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-71694) बितान चाकी, सिग्नल्स
 (आईसी-71695) सौरभ तिवारी, ईएमई
 (आईसी-71696) गौरव शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71697) हरमनजीत सिंह संधा, ईएमई
 (आईसी-71698) श्रीदेव पिल्लई, सिग्नल्स
 (आईसी-71699) विवेक बी शर्मा, ईएमई

(आईसी-71700) हेमन्त चौधरी, ईएमई
 (आईसी-71701) इन्द्रजीत बालोटिया, ईएमई
 (आईसी-71702) सीमाला विजयकुमार सोमाशेखर, ईएमई
 (आईसी-71703) प्रदीप कुमार झा, ईएमई
 (आईसी-71704) कार्तिकेय पाण्डेय, सिग्नल्स
 (आईसी-71705) राजीव रंजन, ईएमई
 (आईसी-71706) अंशुमन रॉयचौधरी, इंजीनियर्स
 (आईसी-71707) सौम्यव्रत साहा, सिग्नल्स
 (आईसी-71708) वतन कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-71709) गुरकिरपाल सिंह खाम्बा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71710) अनुपमकुमार दुबे, ईएमई
 (आईसी-71711) जेक्शन जॉस कोटूर, इंजीनियर्स
 (आईसी-71712) गौरव शर्मा, सिग्नल्स

--13 जून 2009

जसवंत सिंह
 संयुक्त निदेशक
 एमएस-8सी

सं. 244, दिनांक 26 अप्रैल 2010--

थल सेना विभाग

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-235931एम), 01 सितम्बर 2009

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार गबर सिंह आरिया (जेसी-841286डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार गिरधारी सिंह (जेसी-841290वाई), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-488532एन), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार चौधरी राम (जेसी-592604वाई), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार सत्या पाल सिंह (जेसी-478218एम), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार तरसेम चन्द (जेसी-143429ए), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार गोविन्दन कुट्टी पी (जेसी-841308के), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार दीगम्बर सिंह (जेसी-841309एम), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार (जेसी-841334एल), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार जगपाल सिंह (जेसी-219694के), 01 सितम्बर 2009
 नायब सूबेदार अशोक कुमार एस (जेसी-221541वाई), 01 सितम्बर 2009
 नायब सूबेदार शाम लाल महतो (जेसी-259388एक्स), 01 सितम्बर 2009
 नायब सूबेदार मनोहरन वी के (जेसी-438283के), 01 सितम्बर 2009

प्रदीप कुमार
 अवर सचिव

 थल सेना विभाग

सं. 245, दिनांक 26 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करती हैं।

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन बीरेन्द्र सिंह (सं. 6932127एक्स अब जेसी-728564एल), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन बीपीसी रेड्डी (सं. 6929385एम अब जेसी-728565एन), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन एस के सुरेश कुमार (सं. 6930892एम अब जेसी-728566डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन जे के शर्मा (सं. 6931227डब्ल्यू अब जेसी-728567वाई), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन विनोद कुमार (सं. 6930919वाई अब जेसी-728568एफ), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन जे डी दनादेव (सं. 6932329डब्ल्यू अब जेसी-728569के), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन आर के पाल (सं. 6932085डब्ल्यू अब जेसी-728570वाई), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन जी जे डागडु (सं. 6932338ए अब जेसी-728571एफ), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन एस एच बाबा (सं. 6932344एन अब जेसी-728572के), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन एमडी गुलाब राव (सं. 6932355ए अब जेसी-728573एम), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन एस एस गनपती (सं. 6932358एन अब जेसी-728574पी), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन एल बी सिंह (सं. 6932371एक्स अब जेसी-728575एक्स), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन पी स्त्रैन (सं. 6932403पी अब जेसी-728576ए), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन के पी अधिकारी (सं. 6932406एच अब जेसी-728577एच), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन एस के शाह (सं. 6932409डब्ल्यू अब जेसी-728578एल), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन एस मंडल (सं. 6932411एन अब जेसी-728579एन), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन एम एस बालासाहेब (सं. 6932365के अब जेसी-728580एच), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन जे पी नारायण (सं. 6932419ए अब जेसी-728581एल), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन जी संतोष कुमार (सं. 6932423एच अब जेसी-728582एन), 22 सितम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन सी रामाक्रिश्ना (सं. 6932430वाई अब जेसी-728583डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन पन्ना लाल (सं. 6932442एन अब जेसी-728584एन), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन जैत सिंह (सं. 6932462एफ अब जेसी-728585एफ), 23 सितम्बर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन पी कुमार (सं. 6932509एफ अब जेसी-728586के), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनीशियन के एस चारी (सं. 6932698डब्ल्यू अब जेसी-728587एम), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क एसडी जंदैल सिंह (सं. 6922393एच अब जेसी-728588पी), 28 मई 2009

हवलदार क्लर्क एसडी टी के साहेब (सं. 6924005वाई अब जेसी-728589एक्स), 01 अगस्त 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एस एस एस यादव (सं. 6923907एफ अब जेसी-728590एम), 01 अगस्त 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) मुन्नी लाल (सं. 6923481एल अब जेसी-728591पी), 01 अगस्त 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) हरी कुमार जी (सं. 6923892के अब जेसी-728592एक्स), 01 अगस्त 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर साकिया (सं. 6923720पी अब जेसी-728593ए), 01 अगस्त 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर पी सिंह (सं. 6924007के अब जेसी-728594एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) आर चौहान (सं. 6920844वाई अब जेसी-728595एल), 24 अगस्त 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (आईएम) डी एम बी राव (सं. 6924042एम अब जेसी-728596एन), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) बी यू बी राव (सं. 6924077एच अब जेसी-728597डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर पी शर्मा (सं. 6924086के अब जेसी-728598वाई), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एन एस तोमर (सं. 6924091पी अब जेसी-728599एफ), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) सत प्रकाश (सं. 6924092एक्स अब जेसी-728600एल), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) डी के सिन्हा (सं. 6924103वाई अब जेसी-728601एन), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) कुरिअन एन वी (सं. 6924109ए अब जेसी-728602डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर के सिंह (सं. 6924111एक्स अब जेसी-728603वाई), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) बी सी पाल (सं. 6924123एम अब जेसी-728604एफ), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) जीतेंद्र कुमार (सं. 6924139एक्स अब जेसी-728605के), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एम के गौतम (सं. 6924141पी अब जेसी-728606एम), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर के शुक्ला (सं. 6924151वाई अब जेसी-728607पी), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर पी सिंह (सं. 6924152एफ अब जेसी-728608एक्स), 01 सितम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) सुरेश कुमार आर (सं. 6924155पी अब जेसी-728609ए), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) आम्बुनेशन बी पी सिंह (सं. 6923834ए अब जेसी-728610पी), 01 अगस्त 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी जे एस यादव (सं. 6930535के अब जेसी-728611एक्स), 01 अगस्त 2009

हवलदार (एसकेटी) वेपन ए साहू (सं. 6923261एफ अब जेसी-728612ए), 01 अगस्त 2009

हवलदार (एसकेटी) सिग्नल रमेश प्रसाद (सं. 6919800पी अब जेसी-728613एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार (एसकेटी) एम टी राज बहादुर (सं. 6920939वाई अब जेसी-728614एल), 01 अगस्त 2009

हवलदार (एसकेटी) आम्बुनेशन थंगाचन एम ए (सं. 6921480के अब जेसी-728615एन), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी एस एस प्रसाद (सं. 6925275ए अब जेसी-728616डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी हाकिम सिंह (सं. 6927673ए अब जेसी-728617वाई), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) एम टी योगेश चंद (सं. 6928135वाई अब जेसी-728618एफ), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी शिवाजी महतो (सं. 6922029के अब जेसी-728619के), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) एम टी होशियार सिंह (सं. 6922199एन अब जेसी-728620वाई), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी के डी शर्मा (सं. 6920712एल अब जेसी-728621एफ), 01 सितम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी एन एल राम (सं. 6920752एम अब जेसी-728622के), 01 सितम्बर 2009

हवलदार ड्राइवर स्पेशल व्हीकल वाई के शर्मा (सं. 6923134एम अब जेसी-728623एम), 01 सितम्बर 2009

हवलदार एस एच (जीडी) डी के पाल (सं. 6922731पी अब जेसी-728624पी), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन डी एन सिंह (सं. 6933489एल अब जेसी-728625एक्स), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन पी के छत्रा (सं. 6932389एन अब जेसी-728626ए), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन ए बर्मन (सं. 6932412डब्ल्यू अब जेसी-728627एच), 01 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन पून सिंह (सं. 6932447एम अब जेसी-728628एल), 01 अक्टूबर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन मधू लाल जी (सं. 6932705एफ अब जेसी-728629एन), 06 सितम्बर 2009

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन सजीवन पी आर (सं. 6932737के अब जेसी-728630एच), 09 सितम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन एच सी शर्मा (सं. 6933524एच अब जेसी-728631एल), 15 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन के सेनापती (सं. 6932786एम अब जेसी-728632एन), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार आम्बुनेशन तकनीशियन एस के सेराजुल इस्लाम (सं. 6932834एफ अब जेसी-728633डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) ए कुमार (सं. 6928969एल अब जेसी-728634वाई), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क (एसडी) मोहेंद्र सिंह (सं. 6923836एल अब जेसी-728635एफ), 01 जून 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) पी पी महादेव (सं. 6931112एच अब जेसी-728636के), 01 अगस्त 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) जयवीर सिंह (सं. 6924167के अब जेसी-728637एम), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) इदान राम (सं. 6924181डब्ल्यू अब जेसी-728638पी), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एस एल मीना (सं. 6924184के अब जेसी-728639एक्स), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) जे आर देओरा (सं. 6924187एक्स अब जेसी-728640एम), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) के डी गनपत (सं. 6922668एल अब जेसी-728641पी), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर एन टैगोर (सं. 6924227एन अब जेसी-728642एक्स), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) सुमन पाठक (सं. 6924229वाई अब जेसी-728643ए), 26 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (आईएम) एम प्रसाद (सं. 6924238ए अब जेसी-728644एच), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) एस कुमार (सं. 6924231डब्ल्यू अब जेसी-728645एल), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) जगदेव सिंह (सं. 6924241ए अब जेसी-728646एन), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) आर एन शर्मा (सं. 6924245डब्ल्यू अब जेसी-728647डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (आईएम) के के तिवारी (सं. 6924289एन अब जेसी-728648वाई), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) विजय कुमार (सं. 6924297एम अब जेसी-728649एफ), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) एस के भाटिया (सं. 6924318एक्स अब जेसी-728650डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) जय सिंह (सं. 6924361वाई अब जेसी-728651वाई), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) रामपाल सिंह (सं. 6924387एन अब जेसी-728652एफ), 01 नवम्बर 2009

हवलदार क्लर्क (एसडी) आई बी सीतारामन (सं. 6924395एम अब जेसी-728653के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) इंजिनियर के के कौसिक (सं. 6923784ए अब जेसी-728654एम), 01 जुलाई 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी एम एम बिस्वास (सं. 6920847एम अब जेसी-728655पी), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी एस सी भास्कर (सं. 6921277एन अब जेसी-728656एक्स), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी आर के सिंह (सं. 6921365के अब जेसी-728657ए), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी विनोद सिंह (सं. 6921431एफ अब जेसी-728658एच), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी गजेंद्रन के (सं. 6921509एफ अब जेसी-728659एल), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी हर गोविंद (सं. 6921648एल अब जेसी-728660ए), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) जी एस एंड सी विद्याधर (सं. 6921949पी अब जेसी-728661एच), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) सिग्नल मैथू टी वी (सं. 6923861के अब जेसी-728662एल), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) सिग्नल साजी एस (सं. 6923883एच अब जेसी-728663एन), 25 अक्टूबर 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार (एसकेटी) सिग्नल पुट्टू लाल (सं. 6923888एफ अब जेसी-728664डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार (एसकेटी) आम्बुनेशन एस के मिश्रा (सं. 6923919डब्ल्यू अब जेसी-728665वाई), 01 नवम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) आम्बुनेशन नानक सिंह (सं. 6923933एच अब जेसी-728666एफ), 01 नवम्बर 2009

हवलदार (एसकेटी) आम्बुनेशन गया प्रसाद (सं. 6923939के अब जेसी-728667के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार एस एच (जीडी) एम एस तवर (सं. 6922184एल अब जेसी-728668एम), 06 सितम्बर 2009

हवलदार एस एच (जीडी) जीतेंद्र सिंह (सं. 6922798एन अब जेसी-728669पी), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार एस एच (जीडी) राम देव (सं. 6922806एफ अब जेसी-728670के), 01 अक्टूबर 2009

हवलदार आर्टिजन डब्ल्यू डब्ल्यू जे चौहान (सं. 6921969एच अब जेसी-728671एम), 01 अक्टूबर 2009

नंद किशोर कश्मीरा
उप सचिव

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 246, दिनांक 26 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

वै गु आ मनि, मुख्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (राजपत्रित) श्री ए के भट्टर्जी को 19 मई 2009 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, ओझर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (राजपत्रित) श्री सुरेश बाबू को 20 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, ओझर में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर के अग्रजन श्री ए पलानी को 25 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ए क्यू ए डब्ल्यू (शस्त्र), कानपुर के अग्रजन श्री रमन लाल को 19 जून 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, कानपुर में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (राजपत्रित) श्री जी. नेदुंचेरेलाथन को 19 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (राजपत्रित) श्री बिरेन्द्र सिंह को 19 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, हैदराबाद में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (राजपत्रित) श्रीमती ग्लोरी मार्गेरेट कुम्पटी को 20 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, हैदराबाद में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (राजपत्रित) श्री बृज भूषण को 25 मई 2009 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि, मुख्यालय, नई दिल्ली में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए (शस्त्र), किरकी के अग्रजन श्री बी टी पेंडोर को 19 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए (शस्त्र), किरकी में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

विनीत सैनी
अवर सचिव

सं. 247, दिनांक 26 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करती है:--

एम एस क्यू ए ए, हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II, श्री रामाकृष्ण शर्मा तंगिराला को 27 अप्रैल 2009 पूर्वाह्न से एम एस क्यू ए ए, हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II, श्री के चक्रवर्ती को 23 मार्च 2009 पूर्वाह्न से एलिस्टा, बंगलौर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, गाजियाबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II, श्री यशपाल सिंह को 24 मार्च 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, गाजियाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I के रूप में।

वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II, श्री नीरज गंजू को 20 मार्च 2009 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए (एच ए एल), हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II, श्री विरेन्द्र प्रसाद खंडूरी को 20 मार्च 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए (एच ए एल), हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, कोरवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह को 26 मार्च 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, कोरवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I के रूप में।

वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II, श्री वी अलागुमुरुगेशन को 24 अगस्त 2009 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I के रूप में।

वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II, श्री संजीव दिवान को 22 दिसम्बर 2009 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I के रूप में।

वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री आर एन गुप्ता को 19 दिसम्बर 2008 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री एम कासीराजा को 22 दिसम्बर 2008 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री के एम प्रियदर्शन को 04 अगस्त 2009 पूर्वाह्न से ए क्यू ए डब्ल्यू (ए), मुरादनगर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री ए जी अय्यंकर को 20 दिसम्बर 2008 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, लखनऊ में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, नासिक के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री प्रदीप रॉय को 02 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, नासिक में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री ए के सिंह को 13 जुलाई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, कानपुर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री सतीश कुमार को 18 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री मिथिलेश कुमार सिंह को 28 मई 2009 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री प्रभाकर मिश्रा को 11 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, गाजियाबाद में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री पी के करमाकर को 23 नवम्बर 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, कोरवा में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

एम एस क्यू ए ए, हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री विजय बी आर चंदिका को 01 मई 2009 पूर्वाह्न से एमएसक्यूए, हैदराबाद में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ए क्यू ए डब्ल्यू (ए), मुरादनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री एस के कपूर को 28 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री अनिल कुमार कोटा को 04 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री नागाराजा आर बालेश्वर को 10 जून 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, किरकी में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, नासिक के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री इफ्तिकार अहमद को 29 जून 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, हैदराबाद में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

एलिस्टा, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री एच देवराजु को 04 जून 2009 पूर्वाह्न से एलिस्टा, बंगलौर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री एच वी हीमंथ कुमार को 03 अगस्त 2009 पूर्वाह्न से एम एस क्यू ए ए, हैदराबाद में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, श्री पी डेवन बेंजामिन को 20 अक्टूबर 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी ए क्यू ए, बंगलौर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री कालीचरण को 31 मार्च 2009 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री ए के शुक्ला को 02 अप्रैल 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, कानपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रीमती ए एन वरालक्ष्मी को 31 मार्च 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री रामाकांत त्रिपाठी को 02 अप्रैल 2009 अपराह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, लखनऊ में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री ए बी एस संदीप को 31 मार्च 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री सी एस कोठांद्रम को 31 मार्च 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री आर ए सोनकर को 02 अप्रैल 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, कानपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, ओझर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री अता-उर-रहमान को 20 अप्रैल 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, ओझर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री यशवंत एकनाथ जाधव को 13 अप्रैल 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, किरकी में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, किरकी के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री राजीव टांक को 30 अप्रैल 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, ओझर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री देबाशीश दत्ता को 31 मार्च 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, बंगलौर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता को 28 अप्रैल 2009 पूर्वाह्न से वै गु आ मनि मुख्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, गाजियाबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री चोंद वर्मा को 01 मई 2009 पूर्वाह्न से ओ आर डी क्यू ए क्यू ए, गाजियाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में।

एस के बंसल
अवर सचिव

वित्त प्रभाग

सं. 248, दिनांक 27 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अनुभाग अधिकारी को उनकी अधिवर्तिता

की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जनवरी 2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करती हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जनवरी 2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करती हैं।

आर सी मीना
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 249, दिनांक 27 अप्रैल 2010--भारत के राजपत्र संख्या 05 दिनांक 31 जनवरी 2009 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक मेजर से ले कर्नल के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : आईसी-53608 प्रतीक, इन्फैन्ट्री

पढ़ा जाए : रिक्त

शुद्धि-पत्र

ले से कप्तान

भारत के राजपत्र में दिनांक 25 अप्रैल 2009 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "ले से कप्तान" के अधीन

प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : आईसी-70756 गौरव अशदीर, इंजीनियर्स

पढ़ा जाए : आईसी-70756 गौरव अशदीर, इंजीनियर्स

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एम एस-8 सी

वायु शाखा

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व एन डी ए कैडेटों को पायलट अफसर के रैंक में

शुद्धि-पत्र

सं. 250, दिनांक 27 अप्रैल 2010--अधिसूचना सं. 1033 राजपत्र 46 में प्रकाशित दिनांक 14 नवम्बर 1992 के संदर्भ में स्थायी कमीशन तथा विंग्स (एक वर्ष के लिए परखाधीन) प्रदान करने के संबंध में पायलट अफसर अनिमेष कुमार सिंह के लिये निम्न सुधार किया जाता है :--

नाम के लिए : अनिमेष कुमार सिंह (21985) उड़ान (नेविगेशन)

पढ़ा जाए : अजय कुमार सिंह (21985) उड़ान (नेविगेशन)

एन विजय कुमार
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3(डी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th May 2010

ARMY BRANCH

No. 236, dated 22nd April 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 13 Jun 2009

The undermentioned Gentlemen Cadets of 124 Regular Course (124 DE, 114 Ex NDA and 91 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt wef 13 Jun 2009 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE, AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

(IC No.), Name and Arms/Services

(IC-71225M) Abhishek Rana, Inf
(IC-71226P) Lalit Mohan Joshi, Inf
(IC-71227X) Kartik Manral, Mech
(IC-71228A) Ankush Gupta, Inf
(IC-71229H) Abhishek Kumar, Inf
(IC-71230X) Mohammad Iliyas Khan, Engrs
(IC-71231A) Hrishik Aggarwal, Inf
(IC-71232H) Pankaj Sharma, AVN
(IC-71233L) Hirekar Yogesh Narayan, AC
(IC-71235W) Sharyfsinh Bhonsle, Inf
(IC-71236Y) Nayan Ghildyal, Inf
(IC-71237F) Borole Vishal Chandrashekhar, Inf
(IC-71238K) Vineet Kumar Malik, AAD
(IC-71239M) Kadhira Venkatachalam N, Arty
(IC-71240F) Vishal Dahiya, EME
(IC-71241K) Kamlesh Kandpal, Inf
(IC-71242M) Dhiraj Murari, Sigs
(IC-71243P) Karan Kochhar, Inf
(IC-71244X) Malhotra Riteshkumar Jagdishchandra, AC
(IC-71245A) Javed Khan S, Inf
(IC-71246H) Nishan Singh, Inf
(IC-71247L) Rajneesh Mall, AOC
(IC-71248N) Medhekar Vidyanand Avinash, Inf
(IC-71249W) Tej Pal Singh, Arty
(IC-71250L) N Vignendra, Inf
(IC-71252W) Patil Suvit Suresh, Inf

(IC-71253Y) Raktim Das, Inf
(IC-71254F) Kamalendra Laur, Arty
(IC-71255K) Lenin Pal, AAD
(IC-71256M) Yumnam Romen Singh, Inf
(IC-71257P) Bibhu Prasanna Tripathy, Inf
(IC-71258X) Pankesh Gupta, Arty
(IC-71259A) Rajeev Janghu, AAD
(IC-71260P) Deshpande Shantanu Pravin, Inf
(IC-71261X) Chavan Abhijitsing Subhashsing, Inf
(IC-71262A) Ashish Das, Arty
(IC-71263H) Sunil Tiwari, AOC
(IC-71264L) Abhinav Rana, Inf
(IC-71265N) Livin V Koottungal, Mech
(IC-71266W) Kulbir Singh, Sigs
(IC-71267Y) Andrew Steve Pakianathan, Inf
(IC-71268F) Siddharth Sharma, Inf
(IC-71269K) Jayanta Deka, ASC
(IC-71270Y) Sahil Gautam, AC
(IC-71271F) Deepak Singh Bhadauria, Inf
(IC-71272K) Gerry George John, Mech
(IC-71273M) Narender Yadav, Arty
(IC-71274P) Azimur Rahman Daudi, Inf
(IC-71275X) Krishanawatar Meena, Inf
(IC-71276A) Abhimanyu Singh Rawat, Inf
(IC-71277H) Jai Narayan Singh, ASC
(IC-71278L) Chirag Bhardwaj, Inf
(IC-71279N) Ashok Saroha, Arty
(IC-71280H) Raj Kiran Bhadauria, AOC
(IC-71281L) Umranihar Ajinkya Vikas, AC
(IC-71282N) Akhil Kashyap, Arty
(IC-71283W) Roshnikanta Irungbam, AVN
(IC-71284Y) Mandeep Singh Negi, ASC
(IC-71285F) Jilu Jacob, AAD
(IC-71286K) Ashutosh Rathore, Inf
(IC-71287M) Mukesh Kumar Garhwal, AOC
(IC-71288P) Ajit Pal Singh Yadav, AC
(IC-71289X) Rakesh Kumar Sharma, Sigs
(IC-71290M) Suman Kumar, Arty
(IC-71291P) Anwar Raza, Arty

(IC-71292X) Padam Singh Chauhan, ASC	(IC-71331L) Ankush Kumar, Inf
(IC-71293A) Ranjan Kumar Kuanr, Arty	(IC-71332N) Arvind Bazala, AC
(IC-71294H) Hitesh Appasaheb Sonawane, Inf	(IC-71333W) Mayank Singh Jadaun, Arty
(IC-71295L) Yogesh Kumar Gupta, Arty	(IC-71334Y) Rohit Tiwari, Inf
(IC-71296N) Dahotre Samrat Ashok, Inf	(IC-71335F) Inderjeet Singh, ASC
(IC-71297W) Ankur Hazarika, ASC	(IC-71336K) Viswaroop Mahapatra, Engrs
(IC-71298Y) Upendra Singh, Arty	(IC-71337M) Ramvinod Singh, Arty
(IC-71299F) Satinder Singh Yadav, AAD	(IC-71338P) Nitin Rana, Arty
(IC-71300L) Ritin Yadav, Arty	(IC-71339X) Rajnish Radhal, AOC
(IC-71301N) Priyanka Mehra, Arty	(IC-71340M) Ravi Kant Dwivedi, AAD
(IC-71302W) Jawahar Singh, AC	(IC-71341P) Abhishek, Inf
(IC-71303Y) Rohit Srivastava, Arty	(IC-71342X) Praveen Kumar NS, Arty
(IC-71304F) Manoj Kumar, Arty	(IC-71343A) Vineeth S Nair, Mech
(IC-71305K) Gyanendra Bhardwaj, Arty	(IC-71344H) Amar Bahadur Karki, AOC
(IC-71306M) DSA Robin Albert, Inf	(IC-71345L) Kojiam Max, Inf
(IC-71307P) Sanjay Gahlyan, Mech	(IC-71346N) Anmol Ahlawat, Sigs
(IC-71308X) Ashutosh Nayak, Inf	(IC-71347W) Himanshu Mishra, Arty
(IC-71309A) Gautam Issar, Arty	(IC-71348Y) Uma Ashish, AOC
(IC-71310P) Ravi Prakash Singh, ASC	(IC-71349F) Vikash Kumar, Inf
(IC-71311X) Ankur Mishra, Arty	(IC-71350W) J Karan Singh, Sigs
(IC-71312A) Bhawani Shankar Pandey, AOC	(IC-71351Y) Kanwar Jaspreet Singh, Engrs
(IC-71313H) H Lamchinthang, Int	(IC-71352F) Gurpreet Singh Dhillon, Inf
(IC-71314L) Kunal Gauray, Arty	(IC-71353K) Plaban Mazumdar, Arty
(IC-71315N) Gajinder Singh Sidhu, Inf	(IC-71354M) Sumit Sharma, Inf
(IC-71316W) Biniwale Mandar Shashikant, Inf	(IC-71355P) Narender Singh, Arty
(IC-71317Y) Shankar Deep Singh, AAD	(IC-71356X) Vikash Patro, Mech
(IC-71318F) Akshay Thimmaiah, AC	(IC-71357A) Prakash Kumar Pathak, ASC
(IC-71319K) Narendra Kumar Pandey, Inf	(IC-71358H) Saurav Sharma, AC
(IC-71320Y) Gagandeep Dhaliwal, Inf	(IC-71359L) Abhimanyu Kumar Shah, Arty
(IC-71321F) Karini Yeshwanth Srikanth, AOC	(IC-71360A) Panicker Abhilash Prabhakar, Inf
(IC-71322K) Sundeep Panwar, AAD	(IC-71361H) Vari Santoshkumar Maniram, Arty
(IC-71323M) Roshan Kumar Jain, Inf	(IC-71362L) Amit Yadav, Inf
(IC-71324P) Nikunj Dhama, Arty	(IC-71363N) Narender Kumar, AOC
(IC-71325X) Nitesh Kumar Singh, Arty	(IC-71364W) Yatinder Kumar, ASC
(IC-71326A) Sudeep Gangadharan, Inf	(IC-71365Y) Shesh Rahul Vishwas, Inf
(IC-71327H) Abhay Sambyal, ASC	(IC-71366F) Santosh Kumar, Int
(IC-71328L) A Tamilarasan, Inf	(IC-71367K) Jitendra Singh, AAD
(IC-71329N) Joshi Jay Avinash, Inf	(IC-71368M) Rahul Sachan, AC
(IC-71330H) Nagaraj Basavaraj Metyal, Inf	(IC-71369P) Nitesh Bhatnagar, Inf

(IC-71370K) Budupu Balaji Rao, Inf	(IC-71409L) Gulshan Kholia, Arty
(IC-71371M) Manoj Saklani, Inf	(IC-71410A) Sunil Kumar Panwar, Sigs
(IC-71372P) Amit Prasher, Arty	(IC-71411H) Surendra Kumar Yadav, Inf
(IC-71373X) Dharmendra Kumar Patel, Inf	(IC-71412L) Tushar Keda Bhadane, AVN
(IC-71374A) Khisti Rohan Shrikant, Inf	(IC-71413N) Sunil Kumar Gupta, Arty
(IC-71375H) Rajat Chandra, Inf	(IC-71414W) Dhruvendra Singh Chauhan, Engrs
(IC-71376L) Rohit Yadav, ASC	(IC-71415Y) Abhai Pratap Singh, AOC
(IC-71377N) Ashutosh Chauhan, ASC	(IC-71416F) Geetesh Dangwal, Arty
(IC-71378W) Arbind Kumar, AOC	(IC-71417K) Vipul Kumar Shukla, Inf
(IC-71379Y) Bharat K Khemani, Inf	(IC-71418M) Avdhesh Tripathi, Inf
(IC-71380N) Vijaiinder Kumar Khola, Arty	(IC-71419P) Vaibhav Srivastava, Engrs
(IC-71381W) Udayan Thakur, ASC	(IC-71420K) Vivek Mall, Int
(IC-71382Y) Varun Parashar, Arty	(IC-71421M) Amitabh Kumar, Arty
(IC-71383F) Harsh Vardhan Singh Sekhawat, Inf	(IC-71422P) Vigneshwaran C, AC
(IC-71384K) Akshay Ashwani, Arty	(IC-71423X) Snigdha Saran Bhatnagar, Arty
(IC-71385M) Abhishek Kumar, Inf	(IC-71424A) Asvini Kumar Chaudhary, AOC
(IC-71386P) Vikramaditya Singh, AVN	(IC-71425H) Aseem Alagh, Mech
(IC-71387X) Ajay Pal Singh Kandari, Arty	(IC-71426L) Jaswant Singh, Inf
(IC-71388A) Pankaj Rawat, Inf	(IC-71427N) Abhimanyu Singh Bika, Inf
(IC-71389H) Abin K Paul, Inf	(IC-71428W) Pushpendra Singh, Arty
(IC-71390X) Sekhar Kumar, EME	(IC-71429Y) Jha Sanjit Kumar Shatrughan, ASC
(IC-71391A) Yogesh Chauhan, ASC	(IC-71430N) Lucky Dass, Inf
(IC-71392H) K Amirtha Raj, Mech	(IC-71431W) Ajay Kumar Tomar, AC
(IC-71393L) Rakesh Chawan, Inf	(IC-71432Y) Saurabh Suri, Arty
(IC-71394N) Sushil Chhikkara, AOC	(IC-71433F) Pushpendar Choudhary, Inf
(IC-71395W) Amar Kumar Sharma, Inf	(IC-71434K) Kanwar Arun Singh, Inf
(IC-71396Y) Aditya Singh, Inf	(IC-71435M) Pushpendra Singh Raghaw, Arty
(IC-71397F) Akshay Chaubey, ASC	(IC-71436P) Somvanshi Avinash Yeshwant, Inf
(IC-71398K) Deepak Sharma, Arty	(IC-71437X) Hemant Thakur, Inf
(IC-71399M) Mohammad Owais Khan, Inf	(IC-71438A) Sunil Kumar M, Inf
(IC-71400W) Sandeep Kumar, AC	(IC-71439H) Shubham Madan, Inf
(IC-71401Y) E Edwin Lincken, Arty	(IC-71440X) Khadase Nandkishore Dipak, Arty
(IC-71402F) Rajveer Singh, Arty	(IC-71441A) Venkateshwaran K, AC
(IC-71403K) Jai Kumar Manish, Mech	(IC-71442H) Anurag, Arty
(IC-71404M) Sushant Dwivedi, Inf	(IC-71443L) Antappan P Abraham, Arty
(IC-71405P) Anuj Sharma, Inf	(IC-71444N) Kevin Kumar T, Inf
(IC-71406X) Chetan Tripathi, AOC	(IC-71445W) Saurabh Shukla, AAD
(IC-71407A) Ashwani Dhaka, AAD	(IC-71446Y) Karan Bembey, Int
(IC-71408H) Krishna Kant Kunal, AAD	(IC-71447F) Rajnikant Godwani, Arty

(IC-71448K) Harish Singh Rawal, Arty	(IC-71487H) Vishwajit, Inf
(IC-71449M) Haldankar Narendra Vaman, AOC	(IC-71488L) Kamal Kumar Chhetri, ASC
(IC-71450F) Papilon Rajkumar, Mech	(IC-71489N) Dakarapu Nagarjun, Inf
(IC-71451K) Samraat Chatterjee, AC	(IC-71490H) Ajay Singh, AVN
(IC-71452M) Rahul Kumar, Arty	(IC-71491L) Yogesh Kumar, AC
(IC-71453P) Sawant Arjun Waman, Inf	(IC-71492N) Anil Kumar Kadyan, Inf
(IC-71454X) Lalit Tshering, Inf	(IC-71493W) Neeraj Kumar, Mech
(IC-71455A) Narender Singh, Inf	(IC-71494Y) Rahul Pandey, AAD
(IC-71456H) Sanjay Singh Bisht, Inf	(IC-71495F) Praveen Kumar Thakur, Arty
(IC-71457L) Alok Kumar Tiwari, Arty	(IC-71496K) Amitava Raha, Inf
(IC-71458N) Vipin Nath P, AAD	(IC-71497M) Jitendra Kumar Singh, Inf
(IC-71459W) Mohit Grewal, ASC	(IC-71498P) Naveen Chandra, Arty
(IC-71460L) Amit Sharma, Inf	(IC-71499X) Akshay Kumar, AAD
(IC-71461N) S Zamkholun, Inf	(IC-71500F) Ajay Dhayal, AC
(IC-71462W) Ankit Tiwari, Inf	(IC-71501K) Yogesh Kumar, Arty
(IC-71463Y) Sunil Kumar Yadav, Sigs	(IC-71502M) Rohan Batra, ASC
(IC-71464F) Amit Sehrawat, AOC	(IC-71503P) Subin Vasudevan, Inf
(IC-71465K) Ravinder Singh, AAD	(IC-71504X) Lalit Mohan Joshi, Inf
(IC-71466M) Sumit Sharma, Arty	(IC-71505A) Mahendra Pratap Singh Rathore, AOC
(IC-71467P) Ajay Sharma, Inf	(IC-71506H) Sandeep, Inf
(IC-71468X) Chandra Kant Joshi, Inf	(IC-71507L) Sumit Kumar Dwibedi, Arty
(IC-71469A) Vishwa Pratap Rao, Inf	(IC-71508N) Aditya Vikram Singh, Mech
(IC-71470P) Pawan Kumar Solanki, Inf	(IC-71509W) Nissar Hussain Dar, Inf
(IC-71471X) Deepak Kumar Mishra, AOC	(IC-71510L) Ravi Singh, Arty
(IC-71472A) Deepak Kumar Bharadwaj, Inf	(IC-71511N) Chandan Kohli, AVN
(IC-71473H) Govind Kumar Nath, Arty	(IC-71512W) Sapdhare Harsh Madhukar, Inf
(IC-71474L) Rakesh Kumar Tiwari, Arty	(IC-71513Y) Pankaj Singh Negi, Inf
(IC-71475N) Kaustubh Singh, AC	(IC-71514F) Pawan Mishra, Inf
(IC-71476W) Sahil Malhan, ASC	(IC-71515K) Bandekar Vikas Ratnakar, Arty
(IC-71477Y) Deepak Kumar Prashar, Int	(IC-71516M) Sandip Yadav, AC
(IC-71478F) Sumit Kr Sharma, Sigs	(IC-71517P) Suresh Kumar, Arty
(IC-71479K) Bhupendra Gautam, Inf	(IC-71518X) Nishith Mishra, Arty
(IC-71480Y) Mahendra Bisht, Inf	(IC-71519A) Mayank Dave, Inf
(IC-71481F) Bharat Singh Jhala, Inf	(IC-71520P) Nikhil Sharan, Arty
(IC-71482K) Kavindra Singh, Inf	(IC-71521X) Mahesh B V, ASC
(IC-71483M) Bikalpa Kumar, ASC	(IC-71522A) Dushyant Choudhary, Sigs
(IC-71484P) Pawan Kumar Singh Sindhu, Inf	(IC-71523H) Gaurav Sharma, Inf
(IC-71485X) Prakash Singh, Inf	(IC-71525N) Khundrakpam Bhupendra Singh, AAD
(IC-71486A) Manoj Singh Kharayat, Arty	(IC-71526W) Chavan Abhijeet Diliprao, Arty

(IC-71527Y) Deepak Verma, Inf
 (IC-71528F) Salim Khan, AOC
 (IC-71529K) Vishwakarma Sudhanshu Jagannath, Inf
 (IC-71530Y) Manoj Kumar Sharma, Mech
 (IC-71531F) Vipin Sirkek, Inf
 (IC-71532K) P Harikrishnan, Arty
 (IC-71533M) Rohit Bakshi, Inf
 (IC-71534P) Kushagr Jaswal, AC
 (IC-71535X) Rohit Manhas, AOC
 (IC-71536A) Gooty Nagarjuna Reddy, Arty
 (IC-71537H) Ashutosh Pandey, AAD
 (IC-71538L) Nelson Yumnam, Inf
 (IC-71539N) Manish Kumar, EME
 (IC-71540H) Arun S R, ASC
 (IC-71541L) Abhishek Mallik, Arty
 (IC-71542N) Gaurang Dobhal, Arty
 (IC-71543W) Abhimanyu, Inf
 (IC-71544Y) Arpit Rathee, AC
 (IC-71545F) Somesh Sharma, Mech
 (IC-71546K) Nishant Bhardwaj, Inf
 (IC-71547M) Manmohan Singh Randhawa, Inf
 (IC-71548P) Ashutosh Kumar, Inf
 (IC-71549X) Ankit Jadhav, Inf
 (IC-71550M) Chandra Bhanu Singh, ASC
 (IC-71551P) Ashish Tripathi, Sigs
 (IC-71552X) Vishnu Nair, Inf
 (IC-71553A) Anthony Patrick, Inf
 (IC-71554H) Ajay Kumar, Inf
 (IC-71555L) Anil Kumar, AAD
 (IC-71556N) Bhupender Sharma, Engrs
 (IC-71557W) Yuvraj Thapa, AOC
 (IC-71558Y) Vikrant, Inf

RAHUL SHARMA
 Lt Col
 AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 237, dated 22nd April 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 87 (Eighty Seven) Gentlemen Cadets of 107 Technical Graduates Course (TGC) and 17

University Entry Scheme (UES) Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 13 Jun 2009 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 13 Jun 2007 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

IMA No., Name, IC No. and Arms/Services

T/6588 Ghatage Aditya Shrikumar (IC-71626F), Inf
 U/928 Chauhan Sadanand Udayasingh (IC-71627K), Sigs
 U/937 Vibhu Sharma (IC-71628M), Inf
 T/6596 Vyas Mitesh Hasmukhbhai (IC-71629P), Sigs
 U/943 Ankush Chowdhury (IC-71630K), Engrs
 U/885 Tero Keyang (IC-71631M), Sigs
 T/6581 Ravinder Singh Shekhawat (IC-71632P), EME
 T/6582 Kanwar Gaurav Singh (IC-71633X), Sigs
 U/919 Prashant Singh (IC-71634A), Engrs
 U/892 Kunal Singh Rajwar (IC-71635H), EME
 U/929 Sidharth Ahlawat (IC-71636L), Engrs
 U/927 Chakradeo Chaitanya Shirish (IC-71637N), Engrs
 U/921 Saurabh Bishnoi (IC-71638W), Engrs
 U/887 Anshul Sharma (IC-71639Y), EME
 U/875 Alexander George (IC-71640N), Engrs
 T/6574 Vikas Varyani (IC-71641W), EME
 U/926 Rahul Pandey (IC-71642Y), EME
 U/863 Rajesh Singh (IC-71643F), Inf
 U/870 Govind Singh Bisht (IC-71644K), EME
 T/6589 Rahul Gova (IC-71645M), Engrs
 U/878 Prateek Shrivastava (IC-71646P), EME
 U/824 Mutalik Desai Raghunandan Anil (IC-71647X), Sigs
 U/851 Ankur Mishra (IC-71648A), Sigs
 U/856 Surendaran J (IC-71649H), EME
 U/917 Johnpaul J Malayil (IC-71650X), EME
 U/895 Vishal Bindra (IC-71651A), Sigs
 U/889 Hemant Sirohi (IC-71652H), Sigs
 U/891 Gursimrandeep Singh (IC-71653L), EME
 U/925 Pasbala Aditya Khushiram (IC-71654N), Sigs
 U/873 Peeyush Paul (IC-71655W), Engrs
 U/912 Suraj Kumar Mishra (IC-71656Y), EME
 U/916 Sandeep Kumar Gupta (IC-71657F), Engrs

U/862 Satyaajeet Mohanty (IC-71658K), Engrs
 T/6585 Patil Swapnil Dilip (IC-71659M), EME
 U/855 Arun Kumar Umar (IC-71660F), Engrs
 U/920 Mahiraj Singh Rathore (IC-71661K), EME
 U/939 Anirudh Rathore (IC-71662M), Sigs
 U/935 Vaidya Aditya Ketankumar (IC-71663P), Sigs
 U/852 Rakesh Ranjan (IC-71664X), Engrs
 U/872 Vipin V Kumar (IC-71665A), Engrs
 U/884 Sentilong (IC-71666H), Sigs
 T/6576 Shinde Amar Ashok (IC-71667L), Engrs
 U/881 Arun Jayadev (IC-71668N), EME
 U/849 Gurpreet Singh (IC-71669W), EME
 U/854 Nikhil Gaur (IC-71670L), EME
 U/907 Venkat Krishnan (IC-71671N), Engrs
 U/865 Saurabh Kumar (IC-71672W), EME
 U/910 Sahil Chaudhry (IC-71673Y), Sigs
 U/879 Subrata Pradhan (IC-71674F), Sigs
 U/864 Raj Kunwar (IC-71675K), Engrs
 U/858 Hemant Vaswani (IC-71676M), Engrs
 U/886 Deepak Rathore (IC-71677P), Engrs
 U/857 Prabhakar Kumar Singh (IC-71678X), Sigs
 U/911 Anupam Kumar (IC-71679A), Engrs
 T/6597 Varshney Prakashchandra Dineshkumar (IC-71680P), Engrs
 U/931 Deepak Singh Chauhan (IC-71681X), Engrs
 U/904 Chinmay Sharma (IC-71682A), Sigs
 U/942 Udeyveer Singh (IC-71683H), Engrs
 U/861 Vijay Kumar Singh (IC-71684L), Sigs
 T/6580 Saurabh Mangain (IC-71685N), AC
 U/868 Anurag Shrikant Upadhyay (IC-71686W), Engrs
 U/900 Archit Sharma (IC-71687Y), Engrs
 T/6579 Vikram Singh (IC-71688F), Engrs
 T/6584 Abhishek Mishra (IC-71689K), Sigs
 T/6591 Amit Kumar Dixit (IC-71690Y), EME
 U/903 Narendra Shriram Kulkarni (IC-71691F), Engrs
 U/871 Anil Malik (IC-71692K), Sigs
 T/6575 Baljinder Singh (IC-71693M), Sigs
 U/882 Bitan Chaki (IC-71694P), Sigs
 U/888 Saurabh Tiwari (IC-71695X), EME

T/6578 Gaurav Sharma (IC-71696A), Engrs
 U/897 Harmanjeet Singh Sangha (IC-71697H), EME
 U/860 Sreedev Pillai (IC-71698L), Sigs
 U/918 Vivek B Sharma (IC-71699N), EME
 U/932 Hement Choudhary (IC-71700X), EME
 U/936 Inderjeet Balotia (IC-71701A), EME
 T/6593 Seemala Vijaykumar Somasekher (IC-71702H), EME
 U/848 Pradeep Kumar Jha (IC-71703L), EME
 U/923 Kartikay Pandey (IC-71704N), Sigs
 U/867 Rajeev Ranjan (IC-71705W), EME
 T/6592 Angshuman Roychoudhury (IC-71706Y), Engrs
 T/6590 Soumyabrata Saha (IC-71707F), Sigs
 T/6586 Vatan Kumar (IC-71708K), Engrs
 U/750 Gurkirpal Singh Khamba (IC-71709M), Engrs
 U/934 Anupamkumar Dubey (IC-71710F), EME
 U/899 Jackson Jose Kottoor (IC-71711K), Engrs
 T/6577 Gaurav Sharma (IC-71712M), Sigs

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned 85 (Eighty Five) GCs of 107 Technical Graduates and 17 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service and Date of SSC (on probation)

107 Technical Graduates Course

T/6574 Vikas Varyani (SS-43497W), Engrs, 16 Jul 2008
 T/6575 Baljinder Singh (SS-43498Y), Sigs, 16 Jul 2008
 T/6576 Shinde Amar Ashok (SS-43499F), Sigs, 16 Jul 2008
 T/6577 Gaurav Sharma (SS-43500L), Sigs, 16 Jul 2008
 T/6578 Gaurav Sharma (SS-43501N), Engrs, 16 Jul 2008
 T/6579 Vikram Singh (SS-43502W), Sigs, 16 Jul 2008
 T/6580 Saurabh Mangain (SS-43503Y), Sigs, 16 Jul 2008
 T/6581 Ravinder Singh Shekhawat (SS-43504F), Sigs, 16 Jul 2008
 T/6582 Kanwar Gaurav Singh (SS-43505K), Sigs, 16 Jul 2008
 T/6584 Abhishek Mishra (SS-43507P), Sigs, 16 Jul 2008

- T/6585 Patil Swapnil Dilip (SS-43508X), EME, 16 Jul 2008
- T/6586 Vatan Kumar (SS-43509A), Engrs, 16 Jul 2008
- T/6588 Ghatage Aditya Shrikumar (SS-43511X), EME, 16 Jul 2008
- T/6589 Rahul Gova (SS-43512A), EME, 16 Jul 2008
- T/6590 Sournyabrata Saha (SS-43513H), Sigs, 16 Jul 2008
- T/6591 Amit Kumar Dixit (SS-43514L), Sigs, 16 Jul 2008
- T/6592 Angshuman Roychoudhury (SS-43515N), Sigs, 16 Jul 2008
- T/6593 Seemala Vijaykumar Somasekher (SS-43516W), EME, 16 Jul 2008
- T/6596 Vyas Mitesh Hasmukhbhai (SS-43519K), Sigs, 16 Jul 2008
- T/6597 Varshney Prakashchandra Dineshkumar (SS-43520Y), Engrs, 18 Jul 2008
- 17 University Entry Scheme Course
- U/848 Pradeep Kumar Jha (SS-43521F), Sigs, 16 Jul 2008
- U/849 Gurpreet Singh (SS-43522K), EME, 08 Aug 2007
- U/851 Ankur Mishra (SS-43524P), Sigs, 24 Jul 2007
- U/852 Rakesh Ranjan (SS-43525X), Sigs, 01 Jul 2007
- U/854 Nikhil Gaur (SS-43527H), EME, 07 Aug 2007
- U/855 Arun Kumar Umar (SS-43528L), Engrs, 09 Jul 2007
- U/856 Surendaran J (SS-43529N), Sigs, 02 Jul 2007
- U/857 Prabhakar Kumar Singh (SS-43530H), EME, 01 Jul 2007
- U/858 Hemant Vaswani (SS-43531L), Sigs, 08 Jul 2007
- U/860 Sreedev Pillai (SS-43533W), Sigs, 16 Jul 2008
- U/861 Vijay Kumar Singh (SS-43534Y), EME, 16 Jul 2008
- U/862 Satyaajeet Mohanty (SS-43535F), EME, 16 Jul 2007
- U/863 Rajesh Singh (SS-43536K), Sigs, 02 Jul 2007
- U/864 Raj Kunwar (SS-43537M), EME, 01 Jul 2007
- U/865 Saurabh Kumar (SS-43538P), Sigs, 16 Jul 2008
- U/867 Rajeev Ranjan (SS-43540M), EME, 31 Jul 2007
- U/868 Anurag Shrikant Upadhyay (SS-43541P), EME, 09 Jun 2007
- U/870 Govind Singh Bisht (SS-43543A), EME, 01 Aug 2007
- U/871 Anil Malik (SS-43544H), Sigs, 16 Jul 2008
- U/872 Vipin V Kumar (SS-43545L), EME, 25 Jun 2007
- U/873 Peeyush Paul (SS-43546N), Sigs, 16 Jul 2008
- U/875 Alexander George (SS-43548Y), EME, 16 Jul 2008
- U/878 Prateek Shrivastava (SS-43551Y), Sigs, 01 Jul 2007
- U/879 Subrata Pradhan (SS-43552F), EME, 19 Nov 2007
- U/881 Arjun Jayadev (SS-43554M), EME, 01 Jul 2007
- U/882 Bitan Chaki (SS-43555P), Sigs, 30 May 2007
- U/884 Sentilong (SS-43557A), Sigs, 25 Jul 2007
- U/885 Tero Keyang (SS-43558H), Sigs, 25 Jul 2007
- U/886 Deepak Rathore (SS-43559L), EME, 16 Jul 2008
- U/887 Anshul Sharma (SS-43560A), Sigs, 16 Jul 2008
- U/888 Saurabh Tiwari (SS-43561H), EME, 04 Jul 2007
- U/889 Hemant Sirohi (SS-43562L), Sigs, 10 Jul 2007
- U/891 Gursimrandeep Singh (SS-43564W), EME, 16 Jul 2008
- U/892 Kunal Singh Rajwar (SS-43565Y), EME, 06 Aug 2007
- U/895 Vishal Bindra (SS-43568M), EME, 16 Jul 2008
- U/897 Harmanjeet Singh Sangha (SS-43570K), Sigs, 16 Jul 2008
- U/899 Jackson Jose Kottoor (SS-43572P), EME, 17 Jul 2007
- U/900 Archit Sharma (SS-43573X), Sigs, 16 Jul 2008
- U/903 Narendra Shriram Kulkarni (SS-43576L), EME, 16 Jul 2008
- U/904 Chinmay Sharma (SS-43577N), Sigs, 25 Jul 2007
- U/907 Venkat Krishnan (SS-43580N), EME, 16 Jul 2008
- U/910 Sahil Chaudhry (SS-43583F), EME, 16 Jul 2008
- U/911 Anupam Kumar (SS-43584K), EME, 27 Jun 2007
- U/912 Suraj Kumar Mishra (SS-43585M), Sigs, 16 Jul 2008
- U/916 Sandeep Kumar Gupta (SS-43589H), EME, 16 Jul 2008
- U/917 Johnpaul J Malayil (SS-43590X), Sigs, 16 Jul 2008
- U/918 Vivek B Sharma (SS-43591A), Sigs, 16 Jul 2008
- U/919 Prashant Singh (SS-43592H), EME, 01 Jul 2007
- U/920 Mahiraj Singh Rathore (SS-43593L), EME, 16 Jul 2008
- U/921 Saurabh Bishnoi (SS-43594N), EME, 01 Jun 2007
- U/923 Kartikay Pandey (SS-43596Y), Sigs, 16 Jul 2008
- U/925 Pasbola Aditya Khushiram (SS-43598K), EME, 16 Jul 2008
- U/926 Rahul Pandey (SS-43599M), EME, 16 Aug 2007
- U/927 Chakradeo Chaitanya Shirish (SS-43600W), EME, 01 Jul 2007

U/928 Chauhan Sadanand Udaysingh (SS-43601Y), Sigs, 09 Aug 2007

U/929 Sidharth Ahlawat (SS-43602F), EME, 01 Jul 2007

U/931 Deepak Singh Chauhan (SS-43604M), Sigs, 01 Aug 2007

U/932 Hemant Choudhary (SS-43605P), Sigs, 16 Jul 2008

U/934 Anupamkumar Dubey (SS-43607A), Sigs, 16 Jul 2007

U/935 Vaidya Aditya Ketankumar (SS-43608H), Sigs, 16 Jul 2008

U/936 Inderjeet Balotia (SS-43609L), Sigs, 16 Jul 2008

U/937 Vibhu Sharma (SS-43610A), Sigs, 16 Jul 2008

U/939 Anirudh Rathore (SS-43612L), Sigs, 16 Jul 2008

U/942 Udeyveer Singh (SS-43615Y), Engrs, 22 Feb 2008

U/943 Ankush Chowdhury (SS-43616F), Sigs, 07 Aug 2007

2. The Arms/Services allotted to the GCs are valid for the duration of their training only.

The undermentioned GCs of 16 University Entry Scheme Course (UES) are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provisions of AI 2/93, as amended :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service and Date of SSC (on probation)

U/750 Gurkirpal Singh Khamba (SS-43082F), EME, 16 Jul 2007

U/824 Mutalik Desai Raghunandan Anil (SS-43156L), Sigs, 10 Jul 2006

2. The Arm/Service allotted to the GCs are valid for the duration of their training only.

RAHUL SHARMA
Lt Col
AMS 8B

NAVY BRANCH

No. 238, dated 22nd April 2010—The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (General Service Cadre), Executive Branch (NAI Cadre), Executive Branch (ATC Cadre), Executive Branch (Logistics Cadre), Education Branch, Engineering Branch (General Service Cadre), Engineering Branch (Submarine Cadre), Engineering Branch (Naval Architecture Cadre), Electrical Branch (General Service Cadre), Electrical Branch (Submarine Cadre), of the Indian Navy for Direct Entry Scheme/University Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 21 Jan 2008, MF/1506/DES(PC)/

Vol-I/03 dated 21 Jan 2008, MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 21 Aug 2007 & MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 23 Aug 2007 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers, P.No., Type of Commission and Date of Commission

Executive Branch (General Service Cadre)—Jul 2005

Alok Uniyal (05777B), SSC, 11 Jul 2005

Abhishek Pathak (05778F), SSC, 11 Jul 2005

A Vinod (05779H), SSC, 11 Jul 2005

Prakash Sekar (05781N), SSC, 11 Jul 2005

M Praveen Kumar (05782R), SSC, 11 Jul 2005

Muthu Kumar A (05783T), SSC, 11 Jul 2005

Kiran Joy (05788B), SSC, 11 Jul 2005

Ajit Kumar R Parab (05789F), SSC, 11 Jul 2005

Kiran Kuppili (05797K), SSC, 11 Jul 2005

Executive Branch (NAI Cadre)—Jul 2005

Tripal Singh (05792N), PC, 11 Jul 2005

Vijender Singh Naniya (05793R), PC, 11 Jul 2005

Executive Branch (ATC Cadre)—Aug 2005

Chavi Rathi (05707W), SSC, 08 Aug 2005

Sadhana Giri (05708Y), SSC, 08 Aug 2005

Umesh Ridhi (05709Z), SSC, 08 Aug 2005

Ajit Koshy (05710A), SSC, 08 Aug 2005

Executive Branch (Logistics Cadre)—Aug 2005

Amit Chaurasia (05762W), SSC, 08 Aug 2005

Shilpi Singh (05764Z), SSC, 08 Aug 2005

Mandip Kaur (05770N), SSC, 08 Aug 2005

Supneet Kaur Grewal (05771R), SSC, 08 Aug 2005

Gopal Theyagarajan (05772T), SSC, 08 Aug 2005

Education Branch—Aug 2005

Namita Paresh Dalal (70535F), SSC, 08 Aug 2005

Suhas Shirbavikar (70536H), SSC, 08 Aug 2005

Vinay Saraswat (70537K), SSC, 08 Aug 2005

Sandeep Murarka (70538N), SSC, 08 Aug 2005

Yogendra Kumar Singh (70539R), SSC, 08 Aug 2005

Bhakti Gokhale (70540T), SSC, 08 Aug 2005

Atul Sehgal (70541W), SSC, 08 Aug 2005

Shikha (70542Y), SSC, 08 Aug 2005

J Venkata Prasad (70543Z), SSC, 08 Aug 2005

Suruchi Gaur (70544A), SSC, 08 Aug 2005
 Sushree Shivanee Pattnaik (70545B), SSC, 08 Aug 2005
 Suman Lata (70546F), SSC, 08 Aug 2005
 Usha Rani (70547H), SSC, 08 Aug 2005
 Protyush Chauhan (70548K), SSC, 08 Aug 2005
 Kumkum Uniyal (70549N), SSC, 08 Aug 2005
 Chavan Pankaj Pandurang (70550R), SSC, 08 Aug 2005
 Vishwaraj Shree (70551T), SSC, 08 Aug 2005
 Shalini Nair (70552W), SSC, 08 Aug 2005
 Pragya R Jopat (70553Y), SSC, 08 Aug 2005

DIRECT ENTRY SCHEME

Engineering Branch (General Service Cadre)—Aug 2005
 Naresh Parsuram Nerkar (42652K), SSC, 08 Aug 2005
 Chandraveer Singh Yadav (42653N), SSC, 08 Aug 2005
 Ranjit Raghunath Dasare (42654R), SSC, 08 Aug 2005
 Jitender Arora (42655T), SSC, 08 Aug 2005
 Vikram Singh (42656W), SSC, 08 Aug 2005
 Anmol Jain (42657Y), SSC, 08 Aug 2005
 Satish Sarkar Krishnan (42658Z), SSC, 08 Aug 2005
 Engineering Branch (Submarine Cadre)—Aug 2005
 Shubhodeep Bhattacharjee (42659A), SSC, 08 Aug 2005
 Engineering Branch (Naval Architecture Cadre)—Aug 2005
 Himanshu Sharma (42663K), SSC, 08 Aug 2005
 Varun Sharma (42664N), SSC, 08 Aug 2005
 Manish Kumar Singh (42665R), SSC, 08 Aug 2005
 Anirudha Pratap S Chauhan (42666T), SSC, 08 Aug 2005
 Ranbir Ranjan (42667W), SSC, 08 Aug 2005
 Ravinder Pal Singh (42683F), SSC, 12 Sep 2005
 Electrical Branch (General Service Cadre)—Aug 2005
 Vikrant Kumar (52154F), SSC, 08 Aug 2005
 B Venkatesh Prabhu (52155H), SSC, 08 Aug 2005
 Jaidrath Yadav (52156K), SSC, 08 Aug 2005
 Rishabh Batra (52157N), SSC, 08 Aug 2005
 Ranjith Ravindran (52158R), SSC, 08 Aug 2005
 Vijay Krishnan U Nair (52159T), SSC, 08 Aug 2005
 Anish Rajan (52160W), SSC, 08 Aug 2005
 Dushmanta Kumar Samal (52161Y), SSC, 08 Aug 2005
 Ponnusamy Jai Ganesh (52162Z), SSC, 08 Aug 2005

Electrical Branch (Submarine Cadre)—Aug 2005

Sukumar Dash (52152A), SSC, 08 Aug 2005

UNIVERSITY ENTRY SCHEME

Engineering Branch (General Service Cadre)—Aug 2005

Electrical Branch (General Service Cadre)—Aug 2005

The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (General Service Cadre), Executive Branch (NAIC Cadre), Executive Branch (Logistics Cadre), Education Branch, Engineering Branch (General Service Cadre), Electrical Branch (General Service Cadre), Electrical Branch (Submarine Cadre) & Naval Architecture Cadre of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 30 Jun 2006, MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 30 Jun 2006 & MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 30 Jun 2006 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers, P. No., Type of Commission and Date of Commission

Executive Branch—Jul 2004 Course

Santosh Krishnan (05669H), SSC, 12 Jul 2004

Vinod Sasidharan (05677A), SSC, 12 Jul 2004

Mohit Kumar Tomer (05680H), SSC, 12 Jul 2004

Nishanth Nellikunj (05682N), SSC, 12 Jul 2004

R Madu Sudanan (05683R), SSC, 18 Jul 2004

Jose Mathews (05684T), SSC, 12 Jul 2004

Vithya Sankar Naveen (05685W), SSC, 17 Jul 2004

Executive Branch (NAIC Cadre)—Jul 2004 Course

Abdul Hameed Thanveer (05662T), SSC, 12 Jul 2004

Shashank Singh Gaur (05664Y), SSC, 12 Jul 2004

Executive Branch (Logistics Cadre)—Aug 2004 Course

Supriya Dutta (05653Y), SSC, 09 Aug 2004

Smriti Tripathi (05658H), SSC, 09 Aug 2004

Vijayata Malik (05659K), SSC, 09 Aug 2004

Education Branch—Aug 2004 Course

Ravi Mishra (70507T), SSC, 09 Aug 2004

Inder Pal Singh (70511A), SSC, 09 Aug 2004

Kuldeep Dagar (70513F), SSC, 09 Aug 2004

Deepak Pal (70516N), SSC, 09 Aug 2004

Nisha Singh (70518T), SSC, 09 Aug 2004

Shilpa Awasthi (70521Z), SSC, 09 Aug 2004

Vijayeta (70525H), SSC, 09 Aug 2004

Engineering Branch—Aug 2004 Course

Mahendra Pratap Singh Dangwal (42549A), SSC, 09 Aug 2004

D Senthilbala (42560A), SSC, 09 Aug 2004

Electrical Branch—Aug 2004 Course

Jagjit Singh Sebi (52092R), SSC, 09 Aug 2004

Vikas Shankar Mishra (52100H), SSC, 09 Aug 2004

Electrical Branch (Submarine Cadre)—Aug 2004 Course

Manish Singh (52104T), SSC, 09 Aug 2004

Mariappan Thiruvengadam (52105W), SSC, 09 Aug 2004

Naval Architecture Cadre—Aug 2004 Course

The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (General Service Cadre), Executive Branch (Hydro Cadre), Education Branch, Engineering Branch (General Service Cadre) and Electrical Branch (General Service Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 15 Jun 2006, MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 15 Jun 2006 & MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 15 Jun 2006 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers, P. No., Type of Commission and Date of Commission

Executive Branch—Jan 2004 Course

Praveen Kumar P (05489Z), SSC, 12 Jan 2004

N Raghuram (05491B), SSC, 12 Jan 2004

Ashwini Kumar Yadav (05492F), SSC, 12 Jan 2004

Inderjit Sikdar (05494K), SSC, 12 Jan 2004

L Hariharan (05495N), SSC, 12 Jan 2004

K Baskaran (05496R), SSC, 12 Jan 2004

Neeraj Soni (05497T), SSC, 15 Jan 2004

Executive Branch—Jan 2004 Course

K Senthil Kumar (05498W), SSC, 12 Jan 2004

Education Branch—Feb 2004 Course

Pramod Menon (70502F), SSC, 09 Feb 2004

Engineering Branch—Feb 2004 Course

Chandra Mauli Dwivedi (42481Y), SSC, 09 Feb 2004

Rahul Pratap Singh (42487K), SSC, 09 Feb 2004

Dinku Borah (42490T), SSC, 09 Feb 2004

M K Sudheep (42491W), SSC, 09 Feb 2004

Sameer Kedarnath Zavar (42492Y), SSC, 09 Feb 2004

Jinoy Joseph (42493Z), SSC, 09 Feb 2004

K P Aditya (42494A), SSC, 09 Feb 2004

Pawandeep Singh (42496F), SSC, 19 Feb 2004

Joseph Thomas Tarun (42497H), SSC, 19 Feb 2004

Electrical Branch—Feb 2004 Course

R Rajiv (51991K), SSC, 09 Feb 2004

Kunal Gupta (51993R), SSC, 09 Feb 2004

Vikram Dutta (51995W), SSC, 09 Feb 2004

Pradeep Pathak (51996Y), SSC, 09 Feb 2004

K Vinayaka (51999B), SSC, 09 Feb 2004

Chirag S Verma (52003N), SSC, 09 Feb 2004

G Arun (52005T), SSC, 09 Feb 2004

P B Gokul Prasad (52006W), SSC, 09 Feb 2004

C Karthik (52007Y), SSC, 09 Feb 2004

Manley Lionel (52008Z), SSC, 18 Feb 2004

The President is pleased to make the following appointments in the Executive Branch (General Service Cadre); Education Branch, Engineering Branch (General Service Cadre), Engineering Branch (Submarine Cadre) and Electrical Branch (General Service Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 26 May 2006, MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 25 May 2006 & MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 29 May 2006 from the dates shown against their names :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers, P. No. Type of Commission & Date of Commission

Executive Branch (General Service Cadre)—Jan 2003

Rajendra Nathu Sastrakar (05411Y), SSC, 13 Jan 2003

P Premjith (05413A), SSC, 13 Jan 2003

Pranjal Sinha (05414B), SSC, 13 Jan 2003

Dakshinmoorthy V (05415F), SSC, 13 Jan 2003

Ranjan Biswas (05416H), SSC, 13 Jan 2003

Education Branch—Feb 2003

Abdul Rashid Karim Desai (70479B), PC, 10 Feb 2003

Engineering Branch (General Service Cadre)—Feb 2003

Srinivas Rao Gariki (42384A), SSC, 10 Feb 2003

Prabhudatta Chand (42391T), SSC, 10 Feb 2003

V Suresh Kumar (42392W), SSC, 10 Feb 2003

Rushikesh S Butolia (42393Y), SSC, 10 Feb 2003

Anil Kumar Singh (42395A), SSC, 10 Feb 2003

Alok Tiwari (42399K), SSC, 10 Feb 2003

Pradeep Kumar S (42405Z), SSC, 13 Feb 2003

N Anand (42410K), SSC, 19 Feb 2003

Engineering Branch (Submarine Cadre)—Feb 2003

Arvinder Singh Bajwa (42389N), SSC, 10 Feb 2003

Jagadeesh (42394Z), SSC, 10 Feb 2003

Electrical Branch (General Service Cadre)—Feb 2003

J Rangarajan (51905R), SSC, 10 Feb 2003

Biju Abraham (51906T), SSC, 10 Feb 2003

Siddhartha Valavala (51919Y), SSC, 10 Feb 2003

R Karthikeyan (51920Z), SSC, 10 Feb 2003

Sandeep Yerule (51921A), SSC, 10 Feb 2003

K Manoj (51923F), SSC, 10 Feb 2003

Subhash Narayan Cheukupalli (51925K), SSC, 10 Feb 2003

Santosh Kumar Chaubey (51929W), SSC, 13 Feb 2003

The President is pleased to make the following appointments in the Executive Branch (General Service Cadre), Executive Branch (Hydro Cadre), Education Branch, Engineering Branch (General Service Cadre), Engineering Branch (Submarine Cadre), Electrical Branch (General Service Cadre) & Electrical Branch (Submarine Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 31 May 2007, MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 31 May 2007 & MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 30 May 2007 from the dates shown against their names :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers, P. No. Type of Commission & Date of Commission

Executive Branch (General Service Cadre)—Jan 2005 Course

Prakash Richard (05686Y), SSC, 10 Jan 2005

Shakti Singh Chauhan (05687Z), SSC, 10 Jan 2005

Naveen Abhishek (05688A), SSC, 10 Jan 2005

Abhishek Patel (05689B), SSC, 10 Jan 2005

Bodhajit Singh Naorem (05691H), SSC, 10 Jan 2005

Ashis Kumar Tripathy (05692K), SSC, 10 Jan 2005

Kundan (05693N), SSC, 10 Jan 2005

K K Jagadeep (05694R), SSC, 10 Jan 2005

Mohan Kumar Budan Kayala (05697Y), SSC, 10 Jan 2005

Kiran Kumar Sinha (05698Z), SSC, 10 Jan 2005

S Madhu (05699A), SSC, 10 Jan 2005

Janardhana Chetan (05700B), SSC, 10 Jan 2005

Himant Hothi (05701F), SSC, 10 Jan 2005

Raju Sankar (05703K), SSC, 10 Jan 2005

Executive Branch (Hydro Cadre)—Jan 2005 Course

M Vishnuvardhan (05704N), SSC, 10 Jan 2005

Dhiraj Kumar (05705R), SSC, 10 Jan 2005

Pradeep Kumar Bral (05706T), SSC, 10 Jan 2005

Education Branch—Jan 2005 Course

Rakesh Nain (70526K), PC, 10 Jan 2005

Ajit Krishnan (70527N), PC, 10 Jan 2005

N Santosh Kumar (70532Z), PC, 10 Jan 2005

Engineering Branch (General Service)—Feb 2005 Course

Neeraj Parmar (42577R), SSC, 07 Feb 2005

Virdi Ranjeet Singh (42580Y), SSC, 07 Feb 2005

Abhijit Ashok Mahapure (42581Z), SSC, 07 Feb 2005

Rahul Ramgounda Patil (42582A), SSC, 07 Feb 2005

Rathod Romesh Purshottam (42585H), SSC, 07 Feb 2005

Sandeep Malik (42586K), SSC, 07 Feb 2005

Vijayant Tyagi (42587N), SSC, 07 Feb 2005

A Shriram Shankar (42588R), SSC, 07 Feb 2005

Engineering Branch (Submarine Cadre)—Feb 2005 Course

Pradip Singh Nehra (42589T), SSC, 17 Feb 2005

Electrical Branch (General Service)—Feb 2005 Course

Ashwin M Rao (52063Z), SSC, 07 Feb 2005

Aditya Singh (52064A), SSC, 07 Feb 2005

Kamaldeep Singh Toor (52067H), SSC, 07 Feb 2005

Madhav Damera (52068K), SSC, 07 Feb 2005

Amit Kumar (52070R), SSC, 07 Feb 2005

Abhinav Singh (52072W), SSC, 07 Feb 2005

Mahesh Kumar Panshetty (52073Y), SSC, 07 Feb 2005

Tirumal Valavan Rathinavelu (52075A), SSC, 07 Feb 2005

Naveen K (52078H), SSC, 07 Feb 2005

Varun Santosh Khanwalkar (52079K), SSC, 07 Feb 2005

Visakh Varma V (52080N), SSC, 07 Feb 2005

Electrical Branch (Submarine Cadre)—Feb 2005 Course

Rajesh R (52083W), SSC, 17 Feb 2005

R RAJAGOPALAN
Commander
JDMPR (OI & R)

ARMY BRANCH

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 239, dated 22nd April 2010—The President is pleased to extend the appointments of the following officiating Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service

Rules, 2001 with effect from and upto the dates mentioned against their names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name, Date of Birth & Period, From To

S K Jain, 11 Dec 1963, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

P J Ross, 19 Jun 1967, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Anita Kumari, 01 Jan 1967, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Alok Garg, 12 Jun 1963, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

M Sham Raj, 25 Sep 1949, 24 Aug 2008—31 Aug 2008

Gulshan Rai, 30 Oct 1968, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

A K L Das, 26 Jan 1966, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Desh Raj, 05 Oct 1955, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Dipak Kumar Das, 01 Aug 1966, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

SK Melkani, 20 May 1967, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Devi Dayal, 14 May 1953, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Raminder Singh, 29 May 1969, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Rajni Mohan Gupta (Retired), 10 Jan 1949, 24 Aug 2008—31 Jan 2009

Ashis Ray, 07 Jul 1969, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

RK Talwar, 25 Dec 1951, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

KN Chaturvedi, 07 Mar 1950, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Pankaj Bharati, 09 Jul 1971, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Vinay Kumar, 25 Aug 1973, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Kunwar Pratap Singh, 09 Sep 1971, 24 Aug 2008—16 Mar 2009

AK Sarin (Retired), 15 Oct 1948, 24 Aug 2008—31 Oct 2008

NK Patney (Expired), 10 Jan 2009, 24 Aug 2008—25 Aug 2008

Ram Niwas, 14 May 1951, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Satish Kumar, 05 Jul 1950, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

Sanjeev Kumar Verma, 10 Dec 1971, 24 Aug 2008—14 May 2009

OP Choudhary, 26 Dec 1949, 24 Aug 2008—31 Dec 2009

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001. The seniority in this Grade will count towards his regular appointment i.e. Assistant.

The President is pleased to appoint Shri Siddarth Yadav (DoB : 23 April 1980) as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Civil Service on regular basis in Pay Band-2 of

Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 02 Mar 2009.

The President is pleased to promote the following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) on regular basis, on the basis of the LDCE Exam. 2005, in Pay Band-2, of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the dates mentioned against their respective names :—

Name, Date of Birth & Date of Appointment

Ashok Kumar, 01 Jun 1978, 17 Mar 2009

Amitabh Kumar Srivastav, 14 Feb 1977, 22 Jun 2009

Chitrasen Yadav, 14 Jun 1976, 17 Mar 2009

Kalpana Mishra, 19 Mar 1978, 17 Mar 2009

Kunwar Pratap Singh, 09 Sep 1971, 17 Mar 2009

Manoj Kumar Singh, 10 Jul 1976, 17 Mar 2009

Ratnesh Bharati, 05 May 1974, 08 Apr 2009

Rajesh Ranjan, 10 Nov 1969, 17 Mar 2009

AK LAROIYA

Dy CAO (A)

AIR BRANCH

No. 240, dated 23rd April 2010—The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

U/T Officers to be Fg Offr
Meteorological Branch

Fg Offr S Siva Elamurugu (29670) and Vikash Kumar Sinha (29671), wef 21 Jun 2008

Fg Offr Sarungbam Denny Singh (29411), Rahul Sharma (29412), wef 16 Dec 2007

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officer wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def Letter No. Air HQ/ S-24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23rd Apr 2001.

INDIAN AIR FORCE

U/T Officers to be Fg Offr
Meteorological Branch

Fg Offr Taruna Yadav (29413), wef 16 Dec 2007

Fg Offr Rajika Sharma (29869) and Sakshi (29870), wef 20 Dec 2008

Fg Offr Rajika Sharma (29869) and Sakshi (29870), wef 07 Jan 2008

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Manish Ahuja (29857), Fg Offr Arun Kumar Singh (29858), Fg Offr Sapna Janardhan (29859), Fg Offr Ritu Nayak (29860), Fg Offr Charu Sharma (29861), Fg Offr Navidita Sharma (29862), Fg Offr Sheetal Tanwar (29863), Fg Offr Sumati Chandra (29864), Fg Offr Neha Gupta (29865), Fg Offr Parminder Kaur (29866), Fg Offr Sujata (29867), Fg Offr Bhoomika Anand (29868) wef 02 Jan 2009

Fg Offr Manish Ahuja (29857), Fg Offr Arun Kumar Singh (29858), Fg Offr Sapna Janardhan (29859), Fg Offr Ritu Nayak (29860), Fg Offr Charu Sharma (29861), Fg Offr Navidita Sharma (29862), Fg Offr Sheetal Tanwar (29863), Fg Offr Sumati Chandra (29864), Fg Offr Neha Gupta (29865), Fg Offr Parminder Kaur (29866), Fg Offr Sujata (29867), Fg Offr Bhoomika Anand (29868) wef 07 Jan 2008

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officers wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98

**INDIAN AIR FORCE
MET BRANCH**

Fg Offr S Siva Elamurugu (29670) wef 02 Jul 2007

Fg Offr Vikash Kumar Sinha (29671) wef 13 Jul 2007

The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98

**INDIAN AIR FORCE
Ex-Flt Cdts to be Fg Offr**

Administrative Branch

Fg Offr Vijay Kumar Dhankar (29750), Fg Offr Tirunagari Narsimha Swamy (29751), Fg Offr Abhimanyu Singh (29752), Fg Offr R Arun Kumar (29753) wef 16 Dec 2007

Logistics Branch

Fg Offr Praveen Kandala (29754), Fg Offr Bapun Chakraborty (29755), Fg Offr Sandeep Prem Singh (29756), Fg Offr Tejsing Vijayrao Bhosale (29757), Fg Offr Anil Singh Rawat (29758), Fg Offr Rakesh Kumar (29759), Fg Offr Mukund Sharma (29760) wef 16 Dec 2007

Accounts Branch

Fg Offr Salil Singh (29761), Fg Offr Suprasann Mishra (29762) wef 16 Dec 2007

Education Branch

Fg Offr Deepu Mathew (29763), Fg Offr M Rajkumar (29764), Fg Offr Gurdeep Singh Chauhan (29765), Fg Offr Raja Goswami (29766), Fg Offr Kiran Velappan Pillai (29767), Fg Offr Rajeev Saxena (29768), Fg Offr Bhawani Singh (29769) wef 16 Dec 2007

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def Letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23rd Apr 2001

**INDIAN AIR FORCE
Ex-Flt Cdts to be Fg Offr**

Administrative Branch

Fg Offr Vikas Kumar (29772), Fg Offr Dinesh Singh Malik (29773), Fg Offr Pranay Kumar Singh (29774), Fg Offr Bhavesh Kumar Dubey (29775), Fg Offr Ankush Gupta (29776), Fg Offr Rakesh Sharma (29777), Fg Offr Suresh Chandra Sahu (29778), Fg Offr Vikas Singh Parihar (29779), Fg Offr Harvinder Singh Chahar (29780), Fg Offr Sunil Kumar (29781), Fg Offr Praveen Singh (29782), Fg Offr Sabyasachi Mishra (29783) wef 16 Dec 2007

Logistics Branch

Fg Offr Naresh Kumar (29784), Fg Offr Rajesh Kumar Gupta (29785), Fg Offr Binayak Budh Prakash (29786), Fg Offr Arun Kumar (29787), Fg Offr Vijay Krishna Sharma (29788), Fg Offr Vijay Kumar Jadhav (29789) wef 16 Dec 2007

Accounts Branch

Fg Offr Suraj Mathai (29790) wef 16 Dec 2007

Administrative Branch

Fg Offr Priyanka Verma (29797), Fg Offr Aditi Maghav (29798), Fg Offr Vinamrata Sharma (29799), Fg Offr Preeti Yadav (29800), Fg Offr Priyanka Yadav (29801), Fg Offr Akanksha Singh (29802), Fg Offr Pararthana Chahal (29803), Fg Offr Kanupriya Rana (29804) wef 16 Dec 2007

Logistics Branch

Fg Offr Simran Chopra (29805), Fg Offr Preeti Joon (29806), Fg Offr Shilpee Sharma (29807), Fg Offr Pranjali Singh (29808), Fg Offr Vibha Tomar (29809), Fg Offr Arpita Steele (29810) wef 16 Dec 2007

Accounts Branch

Fg Offr Pallavi Chauhan (29811), Fg Offr Sujata Bisht (29812), Fg Offr Shilpa Bohra (29813), Fg Offr Devyani Dhabhai (29814), Fg Offr Diksha Singh (29815), Fg Offr Sonia Rekhi (29816) wef 16 Dec 2007

Education Branch

Fg Offr Anuradha Singh (29817), Fg Offr Shweta Pandey (29818) wef 16 Dec 2007

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and Wings to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Ministry of Defence Letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23rd Apr 2001. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 16 Dec 2007.

INDIAN AIR FORCE
Flying (Pilot) Branch

Ex Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Harneet Dhillon (29791), Fg Offr Priyadarshini Chouhan (29792), Fg Offr Divya Katoch (29793), Fg Offr Tanmaya Hemant Naik (29794), Fg Offr Sneha Bhalchandra Kulkarni (29795) wef 16 Dec 2007

N VIJAYA KUMAR
Wg Cdr
JDPO-3(D)

No. 241, dated 23rd April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name, Arms/Services & Sub Lt Col wef
(IC-46240) Paras Basnett, Inf, 22 Oct 2007
(IC-53648) Vikram Mehndiratta, EME, 10 Jun 2008
(SL-04275) Chandra Pal Singh, AOC, 03 Jun 2008
(IC-53362) Ritesh Kumar, ASC, 03 Nov 2008
(IC-55784) Rajinder Singh, Sigs, 05 Nov 2009
(IC-55785) Manjot Singh Ludhar, EME, 05 Nov 2009

JASWANT SINGH
Jt Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 242, dated 23rd April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
Majs to be Subs Lt Col (Time Scale)

(IC-38805F) Maj Sudhir Pande, Arty, 07 Jun 2000
(IC-38996F) Maj NS Dattaram, Arty, 07 Jun 2000

TK DAS
Dy Dir
MS 8A

ARMY BRANCH

No. 243, dated 23rd April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

(IC No.) Name, Arm & Subs Maj wef
(IC-63224) Nanda Kishore Prakash, Inf—14 Jun 2009

(IC-64967) Ritesh Shrivastava, EME—06 Nov 2005
(IC-64968) Rakesh Pal, Sigs—06 Nov 2005

Lt to be Capt

(IC No.) Name & Arm/Service
(IC-71626) Ghatage Aditya Shrikumar, Inf
(IC-71627) Chauhan Sadanand Udaysingh, Sigs
(IC-71628) Vibhu Sharma, Inf
(IC-71629) Vyas Mitesh Hasmukhbhai, Sigs
(IC-71630) Ankush Chowdhury, Engrs
(IC-71631) Tero Keyang, Sigs
(IC-71632) Ravinder Singh Shekhawat, EME
(IC-71633) Kanwar Gaurav Singh, Sigs
(IC-71634) Prashant Singh, Engrs
(IC-71635) Kunal Singh Rajwar, EME
(IC-71636) Sidharth Ahlawat, Engrs
(IC-71637) Chakradeo Chaitanya Shirish, Engrs
(IC-71638) Saurabh Bishnoi, Engrs
(IC-71639) Anshul Sharma, EME
(IC-71640) Alexander George, Engrs
(IC-71641) Vikas Varyani, EME
(IC-71642) Rahul Pandey, EME
(IC-71643) Rajesh Singh, Inf
(IC-71644) Govind Singh Bisht, EME
(IC-71645) Rahul Gova, Engrs
(IC-71646) Prateek Shrivastava, EME
(IC-71647) Mutalik Desai Raghunandan Anil, Sigs
(IC-71648) Ankur Mishra, Sigs
(IC-71649) Surendaran J, EME
(IC-71650) Johnpaul J Malayil, EME
(IC-71651) Vishal Bindra, Sigs
(IC-71652) Hemant Sirohi, Sigs
(IC-71653) Gursimrandeep Singh, EME
(IC-71654) Pasbola Aditya Khushiram, Sigs
(IC-71655) Peeyush Paul, Engrs
(IC-71656) Suraj Kumar Mishra, EME
(IC-71657) Sandeep Kumar Gupta, Engrs
(IC-71658) Satyajeet Mohanty, Engrs
(IC-71659) Patil Swapnil Dilip, EME
(IC-71660) Arun Kumar Umar, Engrs
(IC-71661) Mahiraj Singh Rathore, EME
(IC-71662) Anirudh Rathore, Sigs
(IC-71663) Vaidya Aditya Ketankumar, Sigs
(IC-71664) Rakesh Ranjan, Engrs

(IC-71665) Vipin V Kumar, Engrs
 (IC-71666) Sentilong, Sigs
 (IC-71667) Shinde Amar Ashok, Engrs
 (IC-71668) Arjun Jayadev, EME
 (IC-71669) Gurpreet Singh, EME
 (IC-71670) Nikhil Gaur, EME
 (IC-71671) Venkat Krishnan, Engrs
 (IC-71672) Saurabh Kumar, EME
 (IC-71673) Sahil Chaudhry, Sigs
 (IC-71674) Subrata Pradhan, Sigs
 (IC-71675) Raj Kunwar, Engrs
 (IC-71676) Hemant Vaswani, Engrs
 (IC-71677) Deepak Rathore, Engrs
 (IC-71678) Prabhakar Kumar Singh, Sigs
 (IC-71679) Anupam Kumar, Engrs
 (IC-71680) Varshney Prakashchandra Dineshkumar, Engrs
 (IC-71681) Deepak Singh Chauhan, Engrs
 (IC-71682) Chinmay Sharma, Sigs
 (IC-71683) Udeyveer Singh, Engrs
 (IC-71684) Vijay Kumar Singh, Sigs
 (IC-71685) Saurabh Mamgain, AC
 (IC-71686) Anurag Shrikant Upadhyay, Engrs
 (IC-71687) Archit Sharma, Engrs
 (IC-71688) Vikram Singh, Engrs
 (IC-71689) Abhishek Mishra, Sigs
 (IC-71690) Amit Kumar Dixit, EME
 (IC-71691) Narendra Shriram Kulkarni, Engrs
 (IC-71692) Anil Malik, Sigs
 (IC-71693) Baljinder Singh, Sigs
 (IC-71694) Bitan Chaki, Sigs
 (IC-71695) Saurabh Tiwari, EME
 (IC-71696) Gaurav Sharma, Engrs
 (IC-71697) Harmanjeet Singh Sangha, EME
 (IC-71698) Sreedev Pillai, Sigs
 (IC-71699) Vivek B Sharma, EME
 (IC-71700) Hemant Choudhary, EME
 (IC-71701) Inderjeet Balotia, EME
 (IC-71702) Seemala Vijaykumar Somasekher, EME
 (IC-71703) Pradeep Kumar Jha, EME
 (IC-71704) Kartikay Pandey, Sigs
 (IC-71705) Rajeev Ranjan, EME
 (IC-71706) Angshuman Roychoudhury, Engrs
 (IC-71707) Soumyabrata Saha, Sigs

(IC-71708) Vatan Kumar, Engrs
 (IC-71709) Gurkirpal Singh Khamba, Engrs
 (IC-71710) Anupamkumar Dubey, EME
 (IC-71711) Jackson Jose Kottoor, Engrs
 (IC-71712) Gaurav Sharma, Sigs

—13 Jun 2009

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS-8C

ARMY BRANCH

No. 244, dated 26th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Balwinder Singh (JC-235931M), 01 Sep 2009

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Gabar Singh Ariya (JC-841286W), 01 Aug 2009

Nb Sub Girdhari Singh (JC-841290Y), 01 Aug 2009

Nb Sub Sumer Singh (JC-488532N), 01 Aug 2009

Nb Sub Choudhari Ram (JC-592604Y), 01 Aug 2009

Nb Sub Satya Pal Singh (JC-478218M), 01 Aug 2009

Nb Sub Tarsem Chand (JC-143429A), 01 Aug 2009

Nb Sub Govindan Kutty P (JC-841308K), 01 Sep 2009

Nb Sub Deegamber Singh (JC-841309M), 01 Sep 2009

Nb Sub Ashwani Kumar (JC-841334L), 01 Sep 2009

Nb Sub Jagpal Singh (JC-219694K), 01 Sep 2009

Nb Sub Asok Kumar S (JC-221541Y), 01 Sep 2009

Nb Sub Sham Lal Mahto (JC-259388X), 01 Sep 2009

Nb Sub Manoharan VK (JC-438283K), 01 Sep 2009

PRADEEP KUMAR

Under Secy

ARMY BRANCH

No. 245, dated 26th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMY ORDNANCE CORPS

To be Nb Sub

Hav (AT) Birender Singh (No. 6932127X now JC-728564L), 01 Sep 2009

Hav (AT) BPC Reddy (No. 6929385M now JC-728565N), 01 Sep 2009

Hav (AT) SK Suresh Kumar (No. 6930892M now JC-728566W), 01 Sep 2009

Hav (AT) JK Sharma (No. 6931227W now JC-728567Y),
01 Sep 2009

Hav (AT) Vinod Kumar (No. 6930919Y now JC-728568F),
01 Sep 2009

Hav (AT) JD Dny Andeo (No. 6932329Y now JC-728569K),
01 Sep 2009

Hav (AT) RK Pal (No. 6932085W now JC-728570Y),
01 Sep 2009

Hav (AT) GJ Dagadu (No. 6932338A now JC-728571F),
01 Sep 2009

Hav (AT) SH Baba (No. 6932344N now JC-728572K),
01 Sep 2009

Hav (AT) MD Gulab Rao (No. 6932355A now JC-728573M), 01 Sep 2009

Hav (AT) SS Ganpati (No. 6932358N now JC-728574P),
01 Sep 2009

Hav (AT) LB Singh (No. 6932371X now JC-728575X),
01 Sep 2009

Hav (AT) P Swain (No. 6932403P now JC-728576A),
01 Sep 2009

Hav (AT) KP Adhikari (No. 6932406H now JC-728577H),
01 Sep 2009

Hav (AT) SK Shah (No. 6932409W now JC-728578L),
01 Sep 2009

Hav (AT) S Mandal (No. 6932411N now JC-728579N),
01 Sep 2009

Hav (AT) MS Balasaheb (No. 6932365K now JC-728580H),
01 Sep 2009

Hav (AT) JP Narayan (No. 6932419A now JC-728581L),
01 Sep 2009

Hav (AT) G Santhosh Kumar (No. 6932423H now JC-728582N), 22 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) C Ramakrishna (No. 6932430Y now JC-728583W), 01 Sep 2009

Hav (AT) Panna Lal (No. 6932442N now JC-728584N),
01 Sep 2009

Hav (AT) Jait Singh (No. 6932462F now JC-728585F),
23 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) P Kumar (No. 6932509F now JC-728586K),
01 Sep 2009

Hav (AT) KS Chary (No. 6932698W now JC-728587M),
01 Sep 2009

Hav Clk (SD) Jandail Singh (No. 6922393H now JC-728588P), 28 May 2009

Hav Clk (SD) TK Saheb (No. 6924005Y now JC-728589X),
01 Aug 2009

Hav Clk (IM) SSS Yadav (No. 6923907F now JC-728590M),
01 Aug 2009

Hav Clk (IM) Munni Lal (No. 6923481L now JC-728591P),
01 Aug 2009

Hav Clk (IM) Hari Kumar G (No. 6923892K now JC-728592X), 01 Aug 2009

Hav Clk (IM) R Saikia (No. 6923720P now JC-728593A),
01 Aug 2009

Hav Clk (IM) RP Singh (No. 6924007K now JC-728594H),
01 Aug 2009

Hav Clk (SD) R Chouhan (No. 6920844Y now JC-728595L),
24 Aug 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Clk (IM) DMB Rao (No. 6924042M now JC-728596N),
01 Sep 2009

Hav Clk (SD) Bub Rao (No. 6924077H now JC-728597W),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) RP Sharma (No. 6924086K now JC-728598Y),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) NS Tomar (No. 6924091P now JC-728599F),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) Sat Parkash (No. 6924092X now JC-728600L),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) DK Singha (No. 6924103Y now JC-728601N),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) Kurian NV (No. 6924109A now JC-728602W),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) RK Singh (No. 6924111X now JC-728603Y),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) BC Paul (No. 6924123M now JC-728604F),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) Jitendra Kumar (No. 6924139X now JC-728605K), 01 Sep 2009

Hav Clk (IM) MK Gautam (No. 6924141P now JC-728606M), 01 Sep 2009

Hav Clk (IM) RK Shukla (No. 6924151Y now JC-728607P),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) RP Singh (No. 6924152F now JC-728608X),
01 Sep 2009

Hav Clk (IM) Suresh Kumar R (No. 6924155P now JC-728609A), 01 Sep 2009

Hav (SKT Amn) VP Singh (No. 6923834A now JC-728610P), 01 Aug 2009

Hav (SKT GS&C) JS Yadav (No. 6930535K now JC-728611X), 01 Aug 2009

Hav (SKT Wep) A Sahoo (No. 6923261F now JC-728612A), 01 Aug 2009

Hav (SKT Sig) Ramesh Prasad (No. 6919800P now JC-728613H), 01 Aug 2009

Hav (SKT MT) Rajbahadur (No. 6920939Y now JC-728614L), 01 Aug 2009

Hav (SKT Amn) Thangachan MA (No. 6921480K now JC-728615N), 01 Sep 2009

Hav (SKT GS&C) SS Prasad (No. 6925275A now JC-728616W), 01 Sep 2009

Hav (SKT GS&C) Hakim Singh (No. 6927673A now JC-728617Y), 01 Sep 2009

Hav (SKT MT) Yogesh Chand (No. 6928135Y now JC-728618F), 01 Sep 2009

Hav (SKT GS&C) Shivaji Mahto (No. 6922029K now JC-728619K), 01 Sep 2009

Hav (SKT MT) Hoshiyar Singh (No. 6922199N now JC-728620Y), 01 Sep 2009

Hav (SKT GS&C) KD Sharma (No. 6920712L now JC-728621F), 01 Sep 2009

Hav (SKT GS&C) NL Ram (No. 6920752M now JC-728622K), 01 Sep 2009

Hav (Dvr Spl Veh) YK Sharma (No. 6923134M now JC-728623M), 01 Sep 2009

Hav (SHGD) DK Paul (No. 6922731P now JC-728624P), 01 Sep 2009

Hav (AT) DN Singh (No. 6933489L now JC-728625X), 01 Sep 2009

Hav (AT) PK Chhatra (No. 6932389N now JC-728626A), 01 Sep 2009

Hav (AT) Ashutosh Barman (No. 6932412W now JC-728627H), 01 Sep 2009

Hav (AT) Pooran Singh (No. 6932447M now JC-728628L), 01 Oct 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) Madhu Lal G (No. 6932705F now JC-728629N), 06 Sep 2009

Hav (AT) Sajeevan PR (No. 6932737K now JC-728630H), 09 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) H C Sharma (No. 6933524H now JC-728631H), 15 Oct 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) K Senapathy (No. 6932786M now JC-728632N), 01 Oct 2009

Hav (AT) SK Serajul Islam (No. 6932834F now JC-728633W), 01 Nov 2009

Hav Clk (IM) Awadhesh Kumar (No. 6928969L now JC-728634Y), 01 Dec 2008

Hav Clk (SD) Mohendra Singh (No. 6923836L now JC-728635F), 01 Jun 2009

Hav Clk (SD) PP Mahadev (No. 6931112H now JC-728636K), 01 Aug 2009

Hav Clk (IM) Jaivir Singh (No. 6924167K now JC-728637M), 01 Oct 2009

Hav Clk (IM) Idan Ram (No. 6924181W now JC-728638P), 01 Oct 2009

Hav Clk (IM) SL Meena (No. 6924184K now JC-728639X), 01 Oct 2009

Hav Clk (IM) JR Deora (No. 6924187X now JC-728640M), 01 Oct 2009

Hav CLK (IM) KD Ganpat (No. 6922668L now JC-728641P), 01 Oct 2009

Hav CLK (IM) RN Tagore (No. 6924227N now JC-728642X), 01 Oct 2009

Hav CLK (IM) Suman Pathak (No. 6924229Y now JC-728643A), 26 Oct 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav CLK (IM) M Prasad (No. 6924238A now JC-728644H), 01 Oct 2009

Hav CLK (IM) Satyendra Kumar (No. 6924231W now JC-728645L), 01 Oct 2009

Hav CLK (IM) Jagdeo Singh (No. 6924241A now JC-728646N), 01 Nov 2009

Hav CLK (IM) RN Sharma (No. 6924245W now JC-728647W), 01 Nov 2009

Hav Clk (IM) KK Tiwary (No. 6924289N now JC-728648Y), 01 Nov 2009

Hav Clk (SD) Vijay Kumar (No. 6924297M now JC-728649F), 01 Nov 2009

Hav Clk (SD) SK Bhatia (No. 6924318X now JC-728650W), 01 Nov 2009

Hav Clk (SD) Jai Singh (No. 6924361Y now JC-728651Y), 01 Nov 2009

Hav Clk (SD) Rampal Singh (No. 6924387N now JC-728652F), 01 Nov 2009

Hav Clk (SD) Iyer B Sitaraman (No. 6924395M now JC-728653K), 01 Nov 2009

Hav (SKT Engr) KK Kousik (No. 6923784A now JC-728654M), 01 Jul 2009

Hav (SKT GS&C) MM Biswas (No. 6920847M now JC-728655P), 01 Oct 2009

Hav (SKT GS&C) SC Bhaskar (No. 6921277N now JC-728656X), 01 Oct 2009

Hav (SKT GS&C) RK Singh (No. 6921365K now JC-728657A), 01 Oct 2009

Hav (SKT GS&C) Vinod Singh (No. 6921431F now JC-728658H), 01 Oct 2009

Hav (SKT GS&C) Gajendran K (No. 6921509F now JC-728659L), 01 Oct 2009

Hav (SKT GS&C) Har Govind (No. 6921648L now JC-728660A), 01 Oct 2009

Hav (SKT GS&C) Vidyadhar (No. 6921949P now JC-728661H), 01 Oct 2009

Hav (SKT Sig) Mathew TV (No. 6923861K now JC-728662L), 01 Oct 2009

Hav (SKT Sig) Shaji S (No. 6923883H now JC-728663N), 25 Oct 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Sig) Puttu Lal (No. 6923888F now JC-728664W), 01 Oct 2009

Hav (SKT Amn) SK Mishra (No. 6923919W now JC-728665Y), 01 Nov 2009

Hav (SKT Amn) Nanak Singh (No. 6923933H now JC-728666F), 01 Nov 2009

Hav (SKT Amn) Gaya Prasad (No. 6923939K now JC-728667K), 01 Nov 2009

Hav (SHGD) MS Tawar (No. 6922184L now JC-728668M), 06 Sep 2009

Hav (SHGD) Jitender Singh (No. 6922798N now JC-728669P), 01 Oct 2009

Hav (SHGD) Ram Deo (No. 6922806F now JC-728670K), 01 Oct 2009

Hav Artsn (WW) Jawahar Chauhan (No. 6921969H now JC-728671M), 01 Oct 2009

N K KASHMIRA
Under Secy

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 246, dated 26th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

AK Bhattacharjee, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of HQ DGAQA, New Delhi as Junior Scientific Officer in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 19 May 2009 (F/N)

Suresh Babu, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of ORDAQA, Ojhar as Junior Scientific Officer in ORDAQA, Ojhar w.e.f. 20 May 2009 (F/N)

A Palani, Foreman of ORDAQA, Bangalore as Junior Scientific Officer in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 25 May 2009 (F/N)

Raman Lal, Foreman of Dett. AQA (Armt), Kanpur as Junior Scientific Officer in ORDAQA, Kanpur w.e.f. 19 Jun 2009 (F/N)

G Neduncheralathan, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of ORDAQA, Bangalore as Junior Scientific Officer in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 19 May 2009 (F/N)

Birendra Singh, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of ORDAQA, Hyderabad as Junior Scientific Officer in ORDAQA, Hyderabad w.e.f. 19 May 2009 (F/N)

Glory Margaret Kumpati, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of ORDAQA, Hyderabad as Junior Scientific Officer in ORDAQA, Hyderabad w.e.f. 20 May 2009 (F/N)

Brij Bhushan, Senior Scientific Assistant (Gazetted) of HQ DGAQA, New Delhi as Junior Scientific Officer in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 25 May 2009 (F/N)

BT Pendor, Foreman of ORDAQA (Armt), Kirkee as Junior Scientific Officer in ORDAQA (Armt), Kirkee w.e.f. 19 May 2009 (F/N)

VINEET SAINI
Under Secy

No. 247, dated 26th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

Ramakrishna Sarma Tangirala, Senior Scientific Officer Grade-II of MSQAA, Hyderabad as Senior Scientific Officer Grade-I in MSQAA, Hyderabad w.e.f. 27 Apr 2009 (F/N)

K Chakravarthy Senior Scientific Officer Grade-II of ORDAQA, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-I in ALISDA, Bangalore w.e.f. 23 Mar 2009 (F/N)

Yashpal Singh, Senior Scientific Officer Grade-II of ORDAQA, Ghaziabad as Senior Scientific Officer Grade-I in ORDAQA, Ghaziabad w.e.f. 24 Mar 2009 (F/N)

Neeraj Ganjoo, Senior Scientific Officer Grade-II of HQ DGAQA, New Delhi as Senior Scientific Officer Grade-I in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 20 Mar 2009 (F/N)

Virendra Prasad Khanduri, Senior Scientific Officer Grade-II of ORDAQA (HAL), Hyderabad as Senior Scientific Officer Grade-I in ORDAQA (HAL), Hyderabad w.e.f. 20 Mar 2009 (F/N)

Harendra Pratap Singh, Senior Scientific Officer Grade-II of ORDAQA, Korwa as Senior Scientific Officer Grade-I in ORDAQA, Korwa w.e.f. 26 Mar 2009 (F/N)

V Alagumurugesan, Senior Scientific Officer Grade-II of HQ DGAQA, New Delhi as Senior Scientific Officer Grade-I in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 24 Aug 2009 (F/N)

Sanjeev Diwan, Senior Scientific Officer Grade-II of HQ DGAQA, New Delhi as Senior Scientific Officer Grade-I in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 22 Dec 2009 (F/N)

RN Gupta, SSO-I of HQ DGAQA as Principal Scientific Officer in HQ DGAQA w.e.f. 19 Dec 2008 (F/N)

M Kasiraja, SSO-I of ORDAQA, Bangalore as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 22 Dec 2008 (F/N)

KM Priyadarshanan, SSO-I of ORDAQA, Bangalore as Principal Scientific Officer in Dett AQAW(A), Muradnagar w.e.f. 04 Aug 2009 (F/N)

AG Abhyankar, SSO-I of ORDAQA, Lucknow as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Lucknow w.e.f. 20 Dec 2008 (F/N)

Pradip Roy, SSO-I of ORDAQA, Nasik as Principal Scientific Officer in ORDAQA Nasik w.e.f. 02 May 2009 (F/N)

AK Singh, SSO-I of ORDAQA, Lucknow as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Kanpur w.e.f. 13 Jul 2009 (F/N)

Satish Kumar, SSO-I of ORDAQA, Kanpur as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 18 May 2009 (F/N)

Mithilesh Kumar Singh, SSO-I of ORDAQA, Lucknow as Principal Scientific Officer in HQ DGAQA w.e.f. 28 May 2009 (F/N)

Pravakar Mishra, SSO-I of HQ DGAQA as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Ghaziabad w.e.f. 11 May 2009 (F/N)

PK Karmakar, SSO-I of ORDAQA, Bangalore as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Korwa w.e.f. 23 Nov 2009 (F/N)

Vijay BR Chandika, SSO-I of MSQAA, Hyderabad as Principal Scientific Officer in MSQAA, Hyderabad w.e.f. 01 May 2009 (F/N)

SK Kapoor, SSO-I of Dett. AQAW (A), Muradnagar as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 28 May 2009 (F/N)

Anil Kumar Kota, SSO-I of ORDAQA, Bangalore as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 04 May 2009 (F/N)

Nagaraja R Bableshwar, SSO-I of ORDAQA, Bangalore as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Kirkee w.e.f. 10 Jun 2009 (F/N)

Iftikar Ahmed, SSO-I of ORDAQA, Nasik as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Hyderabad w.e.f. 29 Jun 2009 (F/N)

H Devaraju, SSO-I of ALISDA, Bangalore as Principal Scientific Officer in ALISDA, Bangalore w.e.f. 04 Jun 2009 (F/N)

HV Heemanth Kumar, SSO-I of ORDAQA, Bangalore as Principal Scientific Officer in MSQAA, Hyderabad w.e.f. 03 Aug 2009 (F/N)

P Deman Banjimen, SSO-I of ORDAQA, Bangalore as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 20 Oct 2009 (F/N)

The President is pleased to make the following promotions :—

Kalicharan, Junior Scientific Officer of HQ DGAQA, New Delhi as Senior Scientific Officer Grade-II in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 31 Mar 2009 (F/N)

AK Shukla, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Kanpur as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Kanpur w.e.f. 02 Apr 2009 (F/N)

AN Varalakshmi, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 31 Mar 2009 (F/N)

Rama Kant Tripathi, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Lucknow as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Lucknow w.e.f. 02 Apr 2009 (A/N)

BS Sandeep, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 31 Mar 2009 (F/N)

CS Kothandaram, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 31 Mar 2009 (F/N)

RA Sonkar, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Kanpur as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Kanpur w.e.f. 02 Apr 2009 (F/N)

Ata-Ur-Rahman, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Ojhar as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 20 Apr 2009 (F/N)

Yashvant Eknath Jadhav, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Ojhar as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Kirkee (Armt) w.e.f. 13 Apr 2009 (F/N)

Rajeev Taank, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Kirkee (Armt) as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Ojhar w.e.f. 30 Apr 2009 (F/N)

Debashish Dutta, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Bangalore w.e.f. 31 Mar 2009 (F/N)

Mahendra Kumar Gupta, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Kanpur as Senior Scientific Officer Grade-II in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 28 Apr 2009 (F/N)

Shri Chand Verma, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Ghaziabad as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Ghaziabad w.e.f. 01 May 2009 (F/N)

SK BANSAL
Under Secy

FINANCE DIVISION

No. 248, dated 27th April 2010—The President is pleased to retire Shri J. K. Jain, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31.01.2010 (AN) on attaining the age of superannuation

The President is pleased to retire Shri Mahendra Kumar Sharma, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31.01.2010 (AN) on attaining the age of superannuation

R C MEENA
Asstt Financial Adviser (E)

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 249, dated 27th April 2010—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 05 published on 31 Jan 2009 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Maj to be Lt Col" the following amendment is made :—

For : IC-53608 Prateek, Inf

Read : —Blank—

Lt to be Capt

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 25 Apr 2009 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Lt to be Capt" the following amendment is made :—

For : IC-70756 Gaurav Ashdir, Engrs

Read : IC-70756 Gaurav Ashdhir, Engrs

JASWANT SINGH

Jt Dir
MS-8C

AIR BRANCH

INDIAN AIR FORCE

Ex-NDA Cds to be Plt Offr

CORRIGENDUM

No. 250, dated 27th April 2010—Reference Notification No. 1033 in Gazette No. 46 published on 14 Nov 1992. So far as it relates to the grant of Permanent Commission and Wings (on probation for one year) in respect of Plt Offr Animesh Kumar Singh (21985) F(N) is amended as follows :—

For : Animesh Kumar Singh (21985) F(N)

Read : Ajaya Kumar Singh (21985) F(N)

N VIJAY KUMAR
Wg Cdr
JDPO-3(D)